

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 10—मार्च 16, 2018 (फाल्गुन 19, 1939)

No. 10] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 10—MARCH 16, 2018 (PHALGUNA 19, 1939)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

[भाग I—खण्ड 4]

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 मार्च 2018

रक्षा (एम एस)

सं. 38, दिनांक 9 फरवरी 2018—भारत के राष्ट्रपति अपने अवैतनिक वैयक्तिक स्टाफ में 01 जनवरी 2018 से निम्नलिखित नियुक्तियाँ करते हैं :—

अवैतनिक थल सेना ए.डी.सी.

कवचित कोर

आईसी-35987पी ले.जन. डी. आर. सोनी, वि.से.मे., कवचित कोर

आईसी-35602एम ले.जन. ए. बी. सिवाने, प.वि.से.मे., अ.वि.से.मे., वि.से.मे. (सेवानिवृत्त), कवचित के स्थान पर

तोपखाना/सेना वायु रक्षा कोर

आईसी-38879डब्ल्यू ले.जन. अश्वनी कुमार, अ.वि.से.मे., वि.से.मे., वायु रक्षा कोर (जीसी)

आईसी-35201एक्स ले.जन. अजई कुमार सहगल, वि.से.मे., (सेवानिवृत्त), वायु रक्षा कोर के स्थान पर

**रेवती रमन,
अवर सचिव**

सेना शाखा

सं. 39, दिनांक 12 फरवरी 2018—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारी को सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

कैप्टन रैंक में कमीशन दिया जाता है

परवेज अहमद	टीए (एम)—1236	(ए0एम0सी0 टीए)	27 अप्रैल 2017
------------	---------------	----------------	----------------

ले. के रैंक में

नवरतन सिंह चौहान	टीए—43083	(इन्जीनियर टीए)	28 जुलाई 2017
प्रियंक शुक्ला	टीए—43084	(इन्जीनियर टीए)	28 जुलाई 2017
अंशुमन्त कुमार	टीए—43085	(इन्जीनियर टीए)	28 जुलाई 2017
सुप्रिया चौधरी	टीए—43086	(इन्जीनियर टीए)	28 जुलाई 2017
शौम्य रंजन मुदुली	टीए—43087	(इन्जीनियर टीए)	28 जुलाई 2017
दिलीप कुमार	टीए—43076	(इन्जीनियर टीए)	13 फरवरी 2017
इन्दरपाल सिंह यादव	टीए—43077	(इन्जीनियर टीए)	01 मई 2017
रामादुर्गम मल्लिकार्जुन	टीए—43078	(इन्जीनियर टीए)	23 जून 2017
प्रदीप सोनी	टीए—43079	(इन्जीनियर टीए)	24 जुलाई 2017
राहुल कुमार पान्डेय	टीए—43080	(इन्जीनियर टीए)	24 जुलाई 2017

माधवेन्द्र प्रताप सिंह,
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 40, दिनांक 13 फरवरी 2018—राष्ट्रपति जी निम्नलिखित की सहर्ष नियुक्त करते हैं:—

नियमित सेना

स्थायी आयोग

(ले0 के पद पर दिनांक 10 जून 2017 से)

निम्नलिखित 303 कैडेटों को जो की 140 नियमित पाठ्यक्रम (67 डाईरेक्ट एन्ट्री, 181 एक्स एन डी ए तथा 55 एक्स ए सी सी) के शस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 10 जून 2017 से, सेना अनुदेश 4/एस/74 (डाईरेक्ट एन्ट्री), सेना अनुदेश 53/78 को विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74 को साथ पढ़ा जाये (एन डी ए) तथा सेना अनुदेश 55/73 (ए सी सी) यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत स्थायी आयोग प्रदान किया जाता है।

आई सी संख्या	नाम	आर्म/सर्विस
82674	एफ अविनाश छेत्री	इन्फैन्ट्री
82675	के विकास सांगवान	इन्फैन्ट्री
82676	एम रोहित जोशी	ईन्जिनियर्स

82677	पी	शिवम शर्मा	एसी
82678	एक्स	नमन भट्ट	एएससी
82679	ए	अनमोल शर्मा	ईएमई
82680	पी	निर्भय सिंह सोइन	इन्फैन्ट्री
82681	एक्स	उत्कर्ष पाण्डेय	इन्फैन्ट्री
82683	एच	आशूतोष बनाथिया	इन्फैन्ट्री
82684	एल	विनय भट्ट	आर्टी
82685	एन	लिगांग कोबिंग	इन्फैन्ट्री
82686	डब्ल्यू	विजय शिवालिंगप्पा कलाशेट्टी	इन्फैन्ट्री
82687	वाई	कुलदीप सिंह	मैक
82688	एफ	सुबम खवाश	इन्फैन्ट्री
82689	के	अश्विन धामणकर	आर्टी
82690	वाई	अंकित कुमार मेटेरिया	आर्टी
82691	एफ	विकास गोयत	आर्टी
82692	के	प्रणव बिष्ट	आर्टी
82693	एम	रविन्द्र सिंह रावत	आर्टी
82694	पी	वैभव श्रीवास्तव	इन्फैन्ट्री
82696	ए	रौनक हटवाल	इन्फैन्ट्री
82697	एच	मंजीत	इन्फैन्ट्री
82698	एल	कार्तिक शशिकुमार	इन्फैन्ट्री
82699	एन	कार्तिकेय राणा	एओसी
82700	एक्स	विशाल शर्मा	एएससी
82701	ए	आयुष भारद्वाज	सिग्नल्स
82702	एच	रुईकर ओंकार प्रमोद	आर्टी
82703	एल	आशीष अग्निहोत्री	इन्फैन्ट्री
82704	एन	अभय सिंह राणा	एविएशन
82706	वाई	किरण कांगने	आर्टी
82707	एफ	अभिमन्यु सिंह राठौड़	इन्फैन्ट्री
82708	के	अभिमन्यु	इन्फैन्ट्री
82709	एम	राहुल कटारिया	इन्फैन्ट्री
82710	एफ	प्रथमेश उदय कोहले	इन्फैन्ट्री
82711	के	राजेन्द्र सिंह	इन्ट
82712	एम	मनीष वर्मा	इन्फैन्ट्री
82713	पी	आशिक हुसैन खानडे	एओसी
82714	एक्स	हर्षित बंखवाल	मैक
82715	ए	रवि कुमार सांगवान	एसी
82716	एच	पुरुषोत्तम न्योल	एसी
82717	एल	ऋषभ शर्मा	इन्फैन्ट्री
82718	एन	सेलवासुन्दरम आर	आर्टी
82719	डब्ल्यू	सौरभ थपलियाल	एएससी
82720	एल	सतिंदर पाल सिंह	मैक

82721	एन	अर्शदीप सिंह ढिल्लों	एएससी
82722	डब्ल्यू	कुमारगौडा	आर्टी
82723	वाई	साहिल मन्हास	आर्टी
82724	एफ	पियुष ठाकुर	इन्फैन्ट्री
82725	के	राहुल कुमार सिंह	इन्जिनियर्स
82726	एम	पुरुषोत्तम	आर्टी
82727	पी	वरुण मेहता	आर्टी
82728	एक्स	आल्ला विष्णु शनमुखम	आर्टी
82729	ए	बिक्रमजीत सिंह	इन्फैन्ट्री
82730	पी	ओइनम खुमानलाबा	इन्फैन्ट्री
82731	एक्स	अमल सी	एएडी
82732	ए	चैतन्य पाण्डेय	इन्फैन्ट्री
82733	एच	रोहित शर्मा	इन्फैन्ट्री
82734	एल	रजत सारंगल	इन्फैन्ट्री
82735	एन	इन्द्रेश पाण्डे	इन्फैन्ट्री
82737	वाई	बिश्वजीत कर	सिग्नल्स
82738	एफ	आधार विश्नीई	आर्टी
82739	के	दुर्गेश पाल	आर्टी
82740	वाई	शैलेन्द्र सिंह	एओसी
82741	एफ	राजेश ठाकरे	इन्फैन्ट्री
82742	के	विश्वरूप सिंह	इन्फैन्ट्री
82743	एम	बॉबी सिंह राघव	एएडी
82744	पी	गौरव निरंजन	इन्ट
82745	एक्स	आकाश बिष्ट	इन्फैन्ट्री
82746	ए	गौरव	इन्फैन्ट्री
82747	एच	ईशन अमरनाथ	इन्जिनियर्स
82748	एल	पियुष रंजन	एसी
82749	एन	विकास नायर एम	मैक
82752	एन	रोहित कुमार	एएडी
82753	डब्ल्यू	दिग्विजय सिंह ढडवाल	इन्फैन्ट्री
82754	वाई	मृगांक भारद्वाज	आर्टी
82755	एफ	लेविश गुप्ता	इन्फैन्ट्री
82756	के	अनुज पन्त	इन्फैन्ट्री
82757	एम	वरुण प्रताप सिंह	इन्फैन्ट्री
82758	पी	अजीत कुमार	एएससी
82759	एक्स	जयदीप सिंह रावत	इन्फैन्ट्री
82760	एम	दिव्यांशु राज पाण्डेय	इन्फैन्ट्री
82761	पी	हिमांशू फोगाट	इन्फैन्ट्री
82762	एक्स	आदर्श उनियाल	आर्टी
82763	ए	राऊत पार्थ मंगेश	इन्फैन्ट्री
82764	एच	शुभम शर्मा	इन्फैन्ट्री

82765	एल	शुभम कुमार	आर्टी
82766	एन	नितिक मलिक	ईएमई
82767	डब्ल्यू	प्रसान्ता कुमार नूनीया	सिग्नल्स
82768	वाई	सुमीत सिंह सरमाल	आर्टी
82769	एफ	चेतन यादव	मैक
82770	डब्ल्यू	प्रशांत सिंह	एसी
82771	वाई	रोहित बिष्ट	इन्फैन्ट्री
82772	एफ	कुणाल गोस्वामी	आर्टी
82773	के	रोहित कुमार	इन्फैन्ट्री
82774	एम	निखिल शर्मा	इन्फैन्ट्री
82775	पी	शाह नवाज	आर्टी
82776	एक्स	सन्दीप दहिया	इन्ट
82777	ए	दीपांकर तिवारी	एएडी
82778	एच	सर्वेश रमन	आर्टी
82779	एल	अमनदीप	इन्फैन्ट्री
82780	ए	शिवम यादव	इन्फैन्ट्री
82781	एच	रवि शंकर शुक्ला	आर्टी
82783	एन	शशि भूषण उप्रेती	इन्फैन्ट्री
82784	डब्ल्यू	देवेन्द्र सिंह अधिकारी	इन्फैन्ट्री
82785	वाई	नूरस समद रहमानी	इन्जिनियर्स
82786	एफ	रत्न कश्यप	एओसी
82788	एम	अभिषेक कुमार	ईएमई
82789	पी	कौशलेंद्र सिंह भाटी	इन्फैन्ट्री
82790	के	सेमचान हंगरॉन	इन्फैन्ट्री
82791	एम	जय डाँग	इन्फैन्ट्री
82792	पी	रवि कान्त शर्मा	एविएशन
82793	एक्स	रोहित सिंह	एसी
82794	ए	करुणेश पन्त	आर्टी
82795	एच	अभिषेक बिष्ट	इन्फैन्ट्री
82796	एल	विक्रान्त	इन्फैन्ट्री
82797	एन	कुशल खत्री	सिग्नल्स
82798	डब्ल्यू	सुनील श्रेष्ठ	एएससी
82799	वाई	दीपक सिंगला	इन्फैन्ट्री
82800	एच	प्रियंक शुक्ला	इन्फैन्ट्री
82801	एल	रवि कान्त प्रसाद	एएससी
82802	एन	जार्जी जान्स	इन्फैन्ट्री
82803	डब्ल्यू	जारकोप डोके	इन्फैन्ट्री
82804	वाई	मोहम्मद साहाबुदीन	एएडी
82805	एफ	अभिराज पाठक	एएडी
82807	एम	अर्जुन वी कंसल	सिग्नल्स
82808	पी	सालियन थरुण दया	इन्फैन्ट्री

82809	एक्स	दिवाकर ब्रह्मचारी	आर्टी
82810	एम	हिमांशु दुबे	इन्फैन्ट्री
82811	पी	सविन्दर ठाकुर	इन्फैन्ट्री
82812	एक्स	दुष्यंत अवस्थी	आर्टी
82813	ए	शशांक राणा	इन्फैन्ट्री
82814	एच	सन्जोक रसाइली	इन्जिनियर्स
82816	एन	लखवीर सिंह	मैक
82817	डब्ल्यू	लक्ष्म यादव	आर्टी
82818	वाई	आशीष कुमार लिम्बू	इन्फैन्ट्री
82820	डब्ल्यू	विशाद काविलेवलफिल	इन्फैन्ट्री
82821	वाई	सुरजन सिंह	एओसी
82822	एफ	आदित्य प्रताप सिंह राठौड़	आर्टी
82823	के	सोमवीर जाखड़	इन्फैन्ट्री
82824	एम	शिवम् दीक्षित	इन्फैन्ट्री
82825	पी	तरनजोत बडवाल	इन्जिनियर्स
82826	एक्स	अनुज	ईएमई
82828	एच	घोगरे ऋषिकेश सुजित	आर्टी
82829	एल	कपिल यादव	आर्टी
82830	ए	राहुल पटेल	इन्ट
82831	एच	राहुल सेठ	इन्फैन्ट्री
82832	एल	अनुज कुमार	आर्टी
82833	एन	आनन्द के सी	इन्फैन्ट्री
82834	डब्ल्यू	सत्यम	एसी
82836	एफ	नवीन चहर	इन्फैन्ट्री
82837	के	शिवम डबराल	इन्फैन्ट्री
82838	एम	मंजुनाथ अप्पासाहेब पाटिल	इन्फैन्ट्री
82839	पी	लोकेश बिष्ट	इन्फैन्ट्री
82840	के	पी जहिरी जॉन माओ	इन्फैन्ट्री
82841	एम	रंधीर कुमार यादव	एओसी
82842	पी	राज कुमार	आर्टी
82844	ए	निलांशु पाण्डेय	इन्फैन्ट्री
82845	एच	शिवेन्द्र प्रताप सिंह	एएससी
82846	एल	अश्विन सोढी	एएडी
82847	एन	अविनाश सिंह	इन्जिनियर्स
82848	डब्ल्यू	राहुल झा	इन्फैन्ट्री
82849	वाई	मनुज कोंवर	मैक
82850	एन	अमित कुमार सिंह	एएससी
82852	वाई	आशय अतुल देशमुख	आर्टी
82853	एफ	रजत किशोर	इन्फैन्ट्री
82854	के	बोबी राज सिंह	ईएमई
82855	एम	दीपेन्द्र सिंह	इन्फैन्ट्री

82856	पी	चेतन कुमार	इन्फैन्ट्री
82857	एक्स	शार्दुल नेगी	मैक
82858	ए	जसवन्त सिंह गूजर	आर्टी
82859	एच	चेतन यादव	आर्टी
82860	एक्स	अभिक धर	आर्टी
82861	ए	अभिषेक गुप्ता	एएडी
82862	एच	अर्जुन ढींगरा	इन्जिनियर्स
82863	एल	सुरेश चन्द्र देवतुल्या	इन्फैन्ट्री
82864	एन	रमन शर्मा	आर्टी
82865	डब्ल्यू	चिरंजीवी भारद्वाज	इन्फैन्ट्री
82866	वाई	अतुल कुमार सिंह	इन्फैन्ट्री
82867	एफ	विकास उपाध्याय	मैक
82868	के	दीपक हर्षवाल	आर्टी
82869	एम	अजयपाल सिंह	इन्फैन्ट्री
82870	एफ	मीटू राजबांगशी	इन्फैन्ट्री
82871	के	शुभम गुप्ता	एविएशन
82872	एम	राजीव कुमार	इन्फैन्ट्री
82873	पी	वरुण दत्त	इन्जिनियर्स
82874	एक्स	जी सजित	इन्फैन्ट्री
82875	ए	रेक्स रोबिन	एएससी
82876	एच	ताबिश हसन	इन्फैन्ट्री
82877	एल	योगेश राव	इन्फैन्ट्री
82878	एन	दिव्याकान्त महापात्रा	इन्फैन्ट्री
82879	डब्ल्यू	नाओरेम प्रेमजित सिंह	आर्टी
82880	एल	विश्वदीप सिंह	इन्फैन्ट्री
82881	एन	आकाश कुमार यादव	एओसी
82882	डब्ल्यू	सरिन वीके	इन्फैन्ट्री
82883	वाई	सुभाष यादव	इन्फैन्ट्री
82884	एफ	दीपक पान्डे	सिग्नल्स
82885	के	मोहित ओहरी	एसी
82886	एम	परबिन्दर कुमार	आर्टी
82887	पी	अर्णव कुमार विश्वास	एएडी
82888	एक्स	सुधांशु कुमार	आर्टी
82889	ए	आशिफ नबिलाल मौकाशी	आर्टी
82890	पी	शशि प्रकाश	आर्टी
82891	एक्स	विरेन्द्र विक्रम	इन्फैन्ट्री
82892	ए	नवीन कुमार	सिग्नल्स
82893	एच	जिश्नू राज टी आर	एओसी
82894	एल	शुभांकर सूद	इन्फैन्ट्री
82895	एन	लॉगजम पोजी सिंह	इन्फैन्ट्री

82896	डब्ल्यू	रत्नेश कुमार	इन्फैन्ट्री
82897	वाई	ईशान आर्या	आर्टी
82898	एफ	विपिन वी	इन्फैन्ट्री
82899	के	अनिल जोशी	मैक
82901	डब्ल्यू	शिवांश त्रिपाठी	इन्फैन्ट्री
82902	वाई	अमित कुमार	एएडी
82903	एफ	नरेश जी	आर्टी
82904	के	सुमित सौरव	इन्फैन्ट्री
82905	एम	मनीष कुमार	मैक
82906	पी	रंजीत सिंह राजपूत	इन्फैन्ट्री
82907	एक्स	ईशान सिंह परिहार	आर्टी
82908	ए	अश्वनी कुमार शुक्ला	इन्फैन्ट्री
82909	एच	उत्तिष्ठ कुमार	इन्फैन्ट्री
82910	एक्स	अनुराग बेनिवाल	एसी
82911	ए	भानु प्रताप मिश्रा	आर्टी
82912	एच	साबिर अहमद मजूमदार	ईएमई
82913	एल	अमीत सिंह लाढ़ी	इन्फैन्ट्री
82914	एन	नबजित शङ्किया	आर्टी
82916	वाई	आशीष राणा	एएससी
82920	एफ	रवि कांत	इन्फैन्ट्री
82921	के	गौरव सिंह	इंजिनियर्स
82923	पी	सर्वेश ओझा	इन्फैन्ट्री
82924	एक्स	रोहित राणा	आर्टी
82925	ए	अंकित दास	इंजिनियर्स
82926	एच	सौरव सिंह	इन्फैन्ट्री
82927	एल	वी दिनेश	आर्टी
82928	एन	दुर्गाप्रसाद मोहन्ती	मैक
82929	डब्ल्यू	अमित जोशी	आर्टी
82931	एन	निखिल चौधरी	सिग्नल्स
82934	एफ	वेदव्यास एस कामत	एसी
82935	के	नरेन्द्र सिंह	आर्टी
82936	एम	मिलिंद कुमार	आर्टी
82937	पी	हिम्मत सिंह	इन्फैन्ट्री
82938	एक्स	सचिन कुमार	इन्फैन्ट्री
82939	ए	निखिल ए नाथ	एएडी
82940	पी	धर्मेन्द्र	ईएमई
82941	एक्स	वीर विरेन्द्र सिंह कटोच	इन्फैन्ट्री
82942	ए	सूरज राई	इन्फैन्ट्री
82943	एच	आकाश	आर्टी
82945	एन	तुषार माने	इन्फैन्ट्री

82946	डब्ल्यू	मुंडे अमित सुभाष	एओसी
82947	वाई	आयुष चौहान	इन्फैन्ट्री
82948	एफ	सुर्यमणी गोस्वामी	एएससी
82949	के	श्रीनिकेत चन्द्रकांत वीर	इन्फैन्ट्री
82950	वाई	अंकित कुमार	इन्फैन्ट्री
82951	एफ	मयंक मालवीय	एएडी
82952	के	गौरव बिष्ट	इन्फैन्ट्री
82953	एम	सुरेंदर सिंह रावत	इन्फैन्ट्री
82954	पी	सुहेल अहमद	इन्फैन्ट्री
82955	एक्स	रितेश कुमार	इन्फैन्ट्री
82956	ए	अभिषेक चौधरी	मैक
82957	एच	मृणाल यादव	इंजिनियर्स
82958	एल	अंशुल फोगाट	एएससी
82959	एन	अमित कुमार	इन्फैन्ट्री
82960	एच	भरत पाण्डेय	आर्टी
82961	एल	देवेन्द्र सिंह	एसी
82962	एन	दपेन्द्र सिंह कौन्डल	इन्फैन्ट्री
82963	डब्ल्यू	नितिश कुमार	आर्टी
82964	वाई	कार्तिकेय शर्मा	इंजिनियर्स
82965	एफ	मनोरंजन कुमार	आर्टी
82967	एम	मल्लिकार्जुन बिसानल नाइकोडी	इन्फैन्ट्री
82968	पी	वाई दीपन संजय	आर्टी
82969	एक्स	साहिल शर्मा	इन्फैन्ट्री
82970	एम	अजय प्रताप सिंह भण्डारी	इन्ट
82971	पी	इन्द्रजीत सिंह	आर्टी
82972	एक्स	अनिकेत चतुर्वेदी	आर्टी
82973	ए	जयबीर राणा	एओसी
82974	एच	रजत कुमार सिंह भदौरिया	आर्टी
82977	डब्ल्यू	अभिषेक कश्यप	इन्फैन्ट्री
82979	एफ	जसकीरथ सिंह मकोल	इन्फैन्ट्री
82981	वाई	राहुल सिंह	इन्फैन्ट्री
82985	पी	चन्दभाईगरी मकरुदिदन	इन्फैन्ट्री
82986	एक्स	रोहित पहल	इन्फैन्ट्री
82987	ए	ऋषि राज सिंह जोधा	एसी
82988	एच	प्रेमाचन्द्रा रेड्डी एन	इन्फैन्ट्री
82989	एल	यदु कृष्णन पी एस	आर्टी
82990	ए	सौरव कुमार सिंह	इन्फैन्ट्री
82991	एच	पेरुगु प्रदीप रेड्डी	इन्फैन्ट्री
82995	वाई	अंकितेश बडोला	इंजिनियर्स

82996	एफ	सूरज सिंह परमार	आर्टी
82997	के	साहिल ऋषि	आर्टी
82998	एम	गौरव यादव	इन्फैन्ट्री
82999	पी	राजवीर सिंह	एओसी
83000	डब्ल्यू	नवीन सिंह रावत	इन्फैन्ट्री
83001	वाई	शिवम शर्मा	आर्टी
83003	के	राहुल अरोड़ा	ईएमई
83004	एम	दिलावर सिंह	इन्फैन्ट्री
83007	ए	मनोज सिंह बिष्ट	आर्टी
83008	एच	सन्तोष कुमार	इन्फैन्ट्री
83009	एल	प्रांजल आर्य	मैक
83010	ए	ज्ञानेन्द्र प्रकाश मिश्रा	इन्फैन्ट्री
83011	एच	गोल्हार विक्रान्त देविदास	इन्फैन्ट्री
83013	एन	मुबारक सिंह पड़डा	एएससी
83014	डब्ल्यू	निकम प्रणव राजेन्दर	आर्टी
83015	वाई	अमन सुन्दियाल	एसी
83016	एफ	बलवीर सिंह	एएससी

(ले. के पद पर दिनांक 10 दिसम्बर 2016 से)

निम्नलिखित नौ कैंडिडेट्स जो कि 139 नियमित पाठ्यक्रम के हैं इन्हें सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 10 दिसम्बर 2016 से स्थाई रूप से विशेष सेना सेना अनुदेश 4/एस/74 (डाईरेक्ट एन्ट्री), सेना अनुदेश 53/78 को विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74 के साथ पढ़ा जाये (एन डी ए) तथा सेना अनुदेश 55/73 (ए सी सी), यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत स्थाई आयोग प्रदान किया जाता है।

आई सी संख्या 82238के कृष्णा कुमार पाण्डेय (आर्टी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 82237एफ सेवक राई (एएससी) के नीचे, आई सी संख्या 82278एल यश यादव (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी संख्या 82277एच जितेन्द्र यादव (इन्फैन्ट्री) के नीचे, आई सी संख्या 82317वाई गौरव प्रकाश टाहरे (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी संख्या 82316डब्ल्यू आदित्य शर्मा (इन्फैन्ट्री) के नीचे, आई सी संख्या 82415वाई विशांत शर्मा (आर्टी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 82414डब्ल्यू आशीष गोस्वामी (आर्टी) के नीचे, आई सी संख्या 82416एफ शुभम विक्रम (आर्टी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 82415वाई विशांत शर्मा (आर्टी) के नीचे, आई सी संख्या 82467पी आनंद पाण्डेय (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी संख्या 82466एम मयंक देशवाल (इन्फैन्ट्री) के नीचे, आई सी संख्या 82472ए दिग्विजय सिंह पटानिया (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी संख्या 82471एक्स सचिन वर्मा (आर्टी) के नीचे, आई सी संख्या 82251एन वैभव प्रमोद (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी संख्या 82250एल जैरी एम जे (आर्टी) के नीचे, आई सी संख्या 82400डब्ल्यू प्रभात सिंह (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी संख्या 82399एम बिसन विनय चरन (आर्टी) के नीचे, के नीचे, प्रकाशित किये जायें।

(ले. के पद पर दिनांक 11 जून 2016 से)

निम्नलिखित छः कैंडिडेट्स जो कि 138 नियमित पाठ्यक्रम के हैं इन्हें सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 11 जून 2016 से स्थाई रूप से विशेष सेना सेना अनुदेश 4/एस/74 (डाईरेक्ट एन्ट्री), सेना अनुदेश 53/78 को विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74 के साथ पढ़ा जाये (एन डी ए) तथा सेना अनुदेश 55/73 (ए सी सी), यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत स्थाई आयोग प्रदान किया जाता है।

आई सी संख्या 81539एफ दीप चन्द्रा (एओसी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81538वाई निखिल अग्रवाल (आर्टी) के नीचे, आई सी संख्या 81548 एच सचिन राठी (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81547ए देबाशीष शर्मा (एएससी) के नीचे, आई सी संख्या 81627एक्स सिद्धार्थ शेखर शुक्ला (मैक) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81626पीअंतरिक्ष फोतेदार (इन्फैन्ट्री) के नीचे, आई सी संख्या 81630एक्स अपू थेगल (एविएशन) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81629एच उदयकुमार दिपकराव चटप (ईएमई) के नीचे, आई सी संख्या 81642एम अरीजित मण्डल (इंजिनियर्स) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81641के प्रशांत मिश्रा (आर्टी) के नीचे, तथा आई सी संख्या 81793एल अभिमन्यु एलिस कुन्दन कुमार (आर्टी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81792एच अनुराग सोलंकी (आर्टी) के नीचे, के नीचे, प्रकाशित किये जायें।

(ले. के पद पर दिनांक 13 जून 2015 से)

निम्नलिखित पाँच कैडेट्स जो कि 136 नियमित पाठ्यक्रम के हैं इन्हे सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 13 जून 2015 से स्थाई रूप से विशेष सेना सेना अनुदेश 4/एस/74 (डाईरेक्ट एन्ट्री), सेना अनुदेश 53/78 को विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74 के साथ पढ़ा जाये (एन डी ए) तथा सेना अनुदेश 55/73 (ए सी सी), यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत स्थाई आयोग प्रदान किया जाता है।

आई सी संख्या 80252एक्स आदित्य बिष्ट (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी संख्या 80251पी अमित कुमार (मैक) के नीचे, आई सी संख्या 80316एक्स गजानन गंगाधर पटानसरी (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी संख्या 80315पी अमित कुमार (एओसी) के नीचे, आई सी संख्या 80484डब्ल्यू मलिपेददि उमामहेश्वर राव (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी संख्या 80483एन आदर्श चौरसिया (ईएमई) के नीचे, आई सी संख्या 80553एफ हरिओम मिश्रा (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी संख्या 80552वाई अनुराग पारीक (मैक) के नीचे, तथा आई सी संख्या 80598एफ परमा संकेत सिद्धेश्वर (सिग्नल्स) की वरिष्ठता आई सी संख्या 80597 वाई संतोष सिंह (इन्फैन्ट्री) के नीचे, प्रकाशित किये जायें।

निम्नलिखित 116 जैण्टलमैन कैडेट्स जो कि 10+2 टी ई एस - 28 पाठ्यक्रम के हैं, को 10 दिसम्बर 2016 (पूर्वाहन) से सेना अनुदेश 3/99, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अंतर्गत लेफ्टिनेंट के पद पर स्थायी आयोग प्रदान किया जाता है :—

आई सी सं.	नाम	आर्मस/सर्विस
82505	ए बी प्रभु देवन	एविएशन
82506	एच पुष्पेन्द्र चौधरी	आर्टी
82507	एल गिरीश ए मस्ती	ईएमई
82508	एन आदित्य	सिगनल्स
82509	डब्ल्यू रोहित कुमार	आर्टी
82510	एल निश्चय चहल	इन्फैन्ट्री
82511	एन यतिन अरोड़ा	सिगनल्स
82512	डब्ल्यू अमृतपाल सिंह	ईएमई
82513	वाई भावेश महाजन	सिगनल्स
82514	एफ जयसूर्या शुक्ला	ईएमई
82515	के बिलाल अहमद खान	एसी
82516	एम अजय कुमार तिवारी	ईएमई
82517	पी शुभम जोशी	सिगनल्स
82518	एक्स अवितोश सिंह तोमर	इन्फैन्ट्री
82519	ए विपुल ममगाई	ईएमई
82520	पी आधार भारद्वाज	एसी
82521	एक्स प्रवीन सिंह	आर्टी
82523	एच क्षितिज काबरा	सिगनल्स
82524	एल शुभम पाठक	इंजिनियर्स
82525	एन सिंह रोहित शंभुनाथ सिंह	सिगनल्स
82526	डब्ल्यू अमित दलाल	आर्टी
82527	वाई मानिक प्रीत सिंह संधु	एसी
82528	एफ अमित सुहाग	ईएमई
82529	के अखिल चौधरी	इंजिनियर्स

82530	वाई	दीपक वशिष्ठ	इंजिनियर्स
82531	एफ	कनिष्का बाबु पिल्लई	सिगनल्स
82532	के	आशीष ढिल्लण	इंजिनियर्स
82533	एम	आयुष पवार	सिगनल्स
82534	पी	संजय पाण्डेय	इन्फैन्ट्री
82535	एक्स	सागर श्रीरंग खरे	आर्टी
82536	ए	अभिमन्यु यादव	इन्फैन्ट्री
82537	एच	प्रवीण कुमार सियाग	इंजिनियर्स
82538	एल	नीरज वर्मा	इन्ट
82539	एन	आकर्ष शर्मा	इन्फैन्ट्री
82540	एच	ध्रुव कुमार	ईएमई
82541	एल	संचित समभ्याल	इन्फैन्ट्री
82542	एन	अवनीश सिंह	मैक
82543	डब्ल्यू	विवेक शंकर	इंजिनियर्स
82544	वाई	जुनेद अंसारी	ईएमई
82545	एफ	बुक्का वेंकटेश	इंजिनियर्स
82546	के	अरुण एस	ईएमई
82547	एम	दीपक डबास	सिगनल्स
82548	पी	सागर सिंह	इंजिनियर्स
82549	एक्स	प्रणव जोशी	ईएमई
82550	एम	ओम सिंह	एओसी
82551	पी	सचिन मिश्रा	सिगनल्स
82552	एक्स	मोरे स्वप्नील सुनील	इंजिनियर्स
82553	ए	प्रवीण सिंह	ईएमई
82554	एच	गौरव वर्मा	इंजिनियर्स
82555	एल	लेशराम बिकेश सिंह	इन्फैन्ट्री
82556	एन	निगिभ शर्मा	सिगनल्स
82557	डब्ल्यू	विशाल राणा	इन्फैन्ट्री
82558	वाई	मधुर चौहान	इंजिनियर्स
82559	एफ	जैरी वर्की पॉल	ईएमई
82560	डब्ल्यू	पल्लव जुती सेनापति	इंजिनियर्स
82561	वाई	अंगद सिंह गुर्म	इंजिनियर्स
82562	एफ	विशाल खत्री	एएडी
82563	के	रोहन पांचाल	एओसी
82564	एम	दीपक शर्मा	सिगनल्स
82565	पी	शुभम पाण्डेय	इन्फैन्ट्री

82566	एक्स	अय्यर चिन्मय विलास	ईएमई
82567	ए	हिमांशु गुप्ता	ईएमई
82568	एच	अक्षय जौहरी	सिगनल्स
82569	एल	के अभय	सिगनल्स
82570	ए	यथार्थ गुप्ता	एविएशन
82571	एच	अर्जुन सिंह राणा	ईएमई
82572	एल	हितेश कुमार	ईएमई
82573	एन	गुरमीत सिंह खनूजा	इंजिनियर्स
82574	डब्ल्यू	अजय थोमस	इन्फैन्ट्री
82575	वाई	पवन कुमार पाण्डे	इंजिनियर्स
82576	एफ	संकल्प दुबे	सिगनल्स
82577	के	सौरभ यादव	आर्टी
82579	पी	अमित कुमार	सिगनल्स
82580	के	मंतोजु धीरज	इंजिनियर्स
82581	एम	ऋषभ वर्मा	ईएमई
82582	पी	दुर्गा प्रताप यादव	ईएमई
82583	एक्स	एलक्सियस सेबास्टियन	ईएमई
82584	ए	काले ओमकार योगेन्द्र	आर्टी
82585	एच	ओम प्रकाश द्विवेदी	इंजिनियर्स
82586	एल	पी श्रीनाथ	ईएमई
82587	एन	कृष्णा रेड्डी	ईएमई
82588	डब्ल्यू	पवन कुमार रोहिल्ला	ईएमई
82589	वाई	वरुण शर्मा	सिगनल्स
82590	एन	हर्षित कालिया	इंजिनियर्स
82591	डब्ल्यू	सिद्धार्थ मलिक	सिगनल्स
82592	वाई	दीपक रंजन पटनायक	सिगनल्स
82593	एफ	राघवेंद्र प्रताप सिंह	इन्फैन्ट्री
82594	के	प्रदीप अत्री	सिगनल्स
82595	एम	संजीव कुमार	सिगनल्स
82596	पी	आकाश कौशिक	इन्फैन्ट्री
82597	एक्स	सुशांत शर्मा	इंजिनियर्स
82598	ए	अंकुश ठाकुर	इन्फैन्ट्री
82599	एच	ध्रुव किशोर शर्मा	इंजिनियर्स
82601	पी	शुभम गौर	इंजिनियर्स
82602	एक्स	आर्यन अभय सिंह	इन्फैन्ट्री
82603	ए	संतोष गुप्ता	ईएमई

82604	एच	साहिल गौर	ईएमई
82605	एल	अभिषेक सिंह	ईएमई
82606	एन	पंकज कुमार	ईएमई
82607	डब्ल्यू	तुषार शर्मा	इन्फैन्ट्री
82608	वाई	श्रवणकुमार जे	आर्टी
82609	एफ	ऋषभ त्यागी	इंजिनियर्स
82610	डब्ल्यू	रजत कुमार मिश्रा	इंजिनियर्स
82611	वाई	अभिषेक कुमार	एओसी
82612	एफ	हाशिर अहमद	सिगनल्स
82613	के	सुमित यादव	ईएमई
82614	एम	कशिश रोहिल्ला	सिगनल्स
82615	पी	आयुष शर्मा	सिगनल्स
82616	एक्स	अभिमन्यु राकेश कुमार	ईएमई
82617	ए	इशप्रीत सिंह	आर्टी
82618	एच	सूयष राजोरिया	एसी
82619	एल	कृष्णकान्त उपाध्याय	इंजिनियर्स
82620	ए	आशीष कुमार ओझा	एएडी
82621	एच	उत्कर्ष द्विवेदी	ईएमई
82622	एल	हरप्रीत सिंह जाहल	इन्फैन्ट्री
82623	एन	अतुल अशोक कुमार ए	एएडी

नियमित सेना

विशेष आयोग

निम्नलिखित 30 जेण्टलमैन कैडेट्स जो कि एस सी ओ- 37 पाठ्यक्रम के हैं, को सेना अनुदेश 5/97 के अंतर्गत संलिखित सेना सेवा में 10 दिसम्बर 2016 से लेफ्टिनेंट के पद पर विशेष आयोग प्रदान किया जाता है :—

ए ओ टी संख्या	सैन्य संख्या		एस सी संख्या		नाम	पैत्रक/आर्म सं./सर्विस	आवंटित आर्मस/सर्विस
एस.1254	15789814	के	01046	पी	अरुण कुमार	ए ए डी	ए ए डी
एस—1244	15571203	एच	01047	एक्स	धाने विक्रम जोतिराम	इंजिनियर्स	इंजिनियर्स
एस—1248	15612074	एल	01048	ए	निर्मल सिंह	मैक	मैक
एस—1232	15618643	के	01049	एच	एस राज	मैक	सिग्नलस
एस—1249	4577952	एफ	01050	एक्स	कुन्दन सिंह भण्डारी	इन्फैन्ट्री	इन्फैन्ट्री
एस—1240	15613567	वाई	01051	ए	जोमबीर	मैक	ए एस सी
एस—1234	15210570	ए	01052	एच	मुकेश कुमार	आर्टी	इन्फैन्ट्री
एस—1233	15217028	एम	01053	एल	अभय कुमार तिवारी	आर्टी	इंजिनियर्स
एस—1255	15483351	एल	01054	एन	रवि राणा	ए सी	ए सी
एस—1247	15694882	एम	01055	डब्ल्यू	लोकपाल सिंह	सिग्नलस	इन्फैन्ट्री

एस-1252	15500050	ए	01056	वाई	मोहित कनवाल	ए सी	इन्फैन्ट्री
एस-1245	2801057	पी	01057	एफ	आजमने दिनदयाल महारुद्र	इन्फैन्ट्री	ए सी
एस-1238	15480747	के	01058	के	जितेन्द्र कुमार	ए सी	ए ओ सी
एस-1231	15679403	एच	01059	एम	मिलेन्द्र सिंह छावई	सिग्नलस	सिग्नलस
एस-1229	15811940	वाई	01060	एफ	संजय कुमार	ए ओ सी	आर्टी
एस-1250	15780439	एच	01061	के	निर्मल कुमार	ए ए डी	आर्टी
एस-1241	15790072	एफ	01062	एम	हिमांशु राजवंशी	ए ए डी	इन्फैन्ट्री
एस-1226	3406951	के	01063	पी	गुरदीप सिंह	इन्फैन्ट्री	इन्फैन्ट्री
एस-1237	14939614	एल	01064	एक्स	सन्दीप कुमार	मैक	आर्टी
एस-1239	15485654	वाई	01065	ए	आलोक कुमार पाढी	ए एस सी	आर्टी
एस-1243	9514081	एम	01066	एच	पंकज शर्मा	ए ई सी	इंजिनियर्स
एस-1251	15697046	एन	01067	एल	राकेश सी आर	सिग्नलस	ई एम ई
एस-1230	6396897	एन	01068	एन	पि अम्बु दासन	ए एस सी	ए एस सी
एस-1227	14650868	के	01069	डब्ल्यू	मनोज कुमार बाम्बू	ई एम ई	ई एम ई
एस-1253	6947451	एम	01070	एल	हेमन्त कुमार	ए ओ सी	इन्फैन्ट्री
एस-1235	6943007	वाई	01071	एन	शिव शंकर पाठक	इन्ट	ए ओ सी
एस-1242	14672008	वाई	01072	डब्ल्यू	यादव अमर विष्णु	ई एम ई	इंजिनियर्स
एस-1228	15155384	एफ	01073	वाई	के आनंद	आर्टी	आर्टी
एस-1193	14655817	ए	01074	एफ	मनोज कुमार सिंह	ई एम ई	सिग्नलस
एस-1246	14670979	एच	01075	के	राजपौल सिंह ठाकुर	ई एम ई	ई एम ई

अभिषेक तिवारी
ले. कर्नल
एएमएस 8बी

सेना शाखा

सं. 41, दिनांक 15 फरवरी 2018—राष्ट्रपति जी निम्नलिखित की सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी आयोग

(ले. के पद पर दिनांक 14 जून 2014 से)

निम्नलिखित एक कैडेट्स जो कि 134 नियमित पाठ्यक्रम के है इन्हे सशस्त्र सेना मे लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 14 जून 2014 से स्थाई रूप से विशेष सेना सेना अनुदेश 4/एस/74 (डाईरेक्ट एन्ट्री), सेना अनुदेश 53/78 को विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74 के साथ पढ़ा जाये (एन डी ए) तथा सेना अनुदेश 55/73 (ए सी सी), यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत स्थाई आयोग प्रदान किया जाता है।

आई सी संख्या 79260के नरपत सिंह गौड़ (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी संख्या 79259पी मनीष कुमार (आर्टी) के नीचे, प्रकाशित किये जायें।

(ले. के पद पर दिनांक 13 दिसम्बर 2014 से)

निम्नलिखित एक कैडेट्स जो कि 135 नियमित पाठ्यक्रम के है इन्हे सशस्त्र सेना मे लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 13 दिसम्बर 2014 से स्थाई रूप से विशेष सेना सेना अनुदेश 4/एस/74 (डाईरेक्ट एन्ट्री), सेना अनुदेश 53/78 को विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74 के साथ पढ़ा जाये (एन डी ए) तथा सेना अनुदेश 55/73 (ए सी सी), यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत स्थाई आयोग प्रदान किया जाता है।

आई सी संख्या 79879एल विदुर कालाकोटी (एओसी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 7878एच तपेश यादव (इन्फैन्ट्री) के नीचे, प्रकाशित किये जायें।

(ले. के पद पर दिनांक 13 जून 2015 से)

निम्नलिखित चार कैडेट्स जो कि 136 नियमित पाठ्यक्रम के हैं इन्हें सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 13 जून 2015 से स्थाई रूप से विशेष सेना सेना अनुदेश 4/एस/74 (डाइरेक्ट एन्ट्री), सेना अनुदेश 53/78 को विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74 के साथ पढ़ा जाये (एन डी ए) तथा सेना अनुदेश 55/73 (ए सी सी), यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत स्थाई आयोग प्रदान किया जाता है।

आई सी संख्या 80500एच प्रभात उपाध्याय (इंजिनियर्स) की वरिष्ठता आई सी संख्या 80499वाई विकास कुमार सोन्दल्या (ईएमई) के नीचे, आई सी संख्या 80514एच प्रवीण यादव (एसी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 80513ए हिमंशु (मैक) के नीचे, आई सी संख्या 80613एल धनंजय सिंह हुड्डा (एसी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 80612एच राना भारती (आई) के नीचे, आई सी संख्या 80628एन सर्वप्रिया अमन (आई) की वरिष्ठता आई सी संख्या 80627एल अभिषेक दूबे (इंजिनियर्स) के नीचे, प्रकाशित किये जायें।

(ले. के पद पर दिनांक 11 जून 2016 से)

निम्नलिखित एक कैडेट्स जो कि 138 नियमित पाठ्यक्रम के हैं इन्हें सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 11 जून 2016 से स्थाई रूप से विशेष सेना सेना अनुदेश 4/एस/74 (डाइरेक्ट एन्ट्री), सेना अनुदेश 53/78 को विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74 के साथ पढ़ा जाये (एन डी ए) तथा सेना अनुदेश 55/73 (ए सी सी), यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत स्थाई आयोग प्रदान किया जाता है।

आई सी संख्या 81770के शुभम बिष्ट (मैक) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81769पी पुनीत कुमार (इन्फैन्ट्री) के नीचे, प्रकाशित किये जायें।

(ले. के पद पर दिनांक 12 दिसम्बर 2015 से)

निम्नलिखित तीन कैडेट्स जो कि 137 नियमित पाठ्यक्रम के हैं इन्हें सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 12 दिसम्बर 2015 से स्थाई रूप से विशेष सेना सेना अनुदेश 4/एस/74 (डाइरेक्ट एन्ट्री), सेना अनुदेश 53/78 को विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74 के साथ पढ़ा जाये (एन डी ए) तथा सेना अनुदेश 55/73 (ए सी सी), यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत स्थाई आयोग प्रदान किया जाता है।

आई सी संख्या 81110एम रविश कुमार यादव (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81109एक्स संतोष कुमार प्रधान (आई) के नीचे, आई सी संख्या 81133एन देवराज सिंह राजावत (ईएमई) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81132एल गौरव डुकरे (इन्फैन्ट्री) के नीचे, तथा आई सी संख्या 81214एन स्वामी नन्दन (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81213एल अशोक चौधरी (एएडी) के नीचे, प्रकाशित किये जायें।

(ले. के पद पर दिनांक 12 दिसम्बर 2015 से)

निम्नलिखित पांच कैडेट्स जो कि 137 नियमित पाठ्यक्रम के हैं इन्हें सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 12 दिसम्बर 2015 से स्थाई रूप से विशेष सेना सेना अनुदेश 4/एस/74 (डाइरेक्ट एन्ट्री), सेना अनुदेश 53/78 को विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74 के साथ पढ़ा जाये (एन डी ए) तथा सेना अनुदेश 55/73 (ए सी सी), यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत स्थाई आयोग प्रदान किया जाता है।

आई सी संख्या 80973एफ मोटे दिनेश सत्यनारायण (आई) की वरिष्ठता आई सी संख्या 80972वाई सुभाष कुमार (इन्फैन्ट्री) के नीचे, आई सी संख्या 80993पी रणबीर सिंह जेजी (एसी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 80992एम पीयूष सुनील देशमुख (एएससी) के नीचे, आई सी संख्या 81052एन अमित वशिष्ठा (एएडी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81051एल गोविंद सिंह बगडवाल (एएससी) के नीचे, आई सी संख्या 81137के अंकित रौशन (एओसी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81136एफ प्रशांत नौनी (इंजिनियर्स) के नीचे, आई सी संख्या 81248एफ पिन्दु कुमार (आई) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81247वाई कुलजीत सिंह (एसी) के नीचे, प्रकाशित किये जायें।

(ले. के पद पर दिनांक 10 दिसम्बर 2016 से)

निम्नलिखित एक कैडेट्स जो कि 139 नियमित पाठ्यक्रम के हैं इन्हें सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 10 दिसम्बर 2016 से स्थाई रूप से विशेष सेना सेना अनुदेश 4/एस/74 (डाइरेक्ट एन्ट्री), सेना अनुदेश 53/78 को विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74 के साथ पढ़ा जाये (एन डी ए) तथा सेना अनुदेश 55/73 (ए सी सी), यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत स्थाई आयोग प्रदान किया जाता है।

आई सी संख्या 82298वाई विपिन सेमवाल (एएससी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 82297डब्ल्यू राजपाल सिंह (सिग्नल्स) के नीचे, प्रकाशित किये जायें।

(ले. के पद पर दिनांक 11 जून 2016 से)

निम्नलिखित चार कैडेट्स जो कि 138 नियमित पाठ्यक्रम के हैं इन्हें सशस्त्र सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर दिनांक 11 जून 2016 से स्थाई रूप से विशेष सेना सेना अनुदेश 4/एस/74 (डाइरेक्ट एन्ट्री), सेना अनुदेश 53/78 को विशेष सेना अनुदेश 4/एस/74 के साथ पढ़ा जाये (एन डी ए) तथा सेना अनुदेश 55/73 (ए सी सी), यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत स्थाई आयोग प्रदान किया जाता है।

आई सी संख्या 81540डब्ल्यू अभिषेक महले (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81539एफ दीप चन्द्रा (एओसी) के नीचे, आई सी संख्या 81834के अमित तिवारी (आर्टी) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81833एफ केशु चंद्रा (आर्टी) के नीचे, आई सी संख्या 81842एच तरुण सिंह गुलेरिया (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81841ए अयुष शर्मा (इन्फैन्ट्री) के नीचे, तथा आई सी संख्या 81890एच आई सूरज बल्लीअप्पा (इन्फैन्ट्री) की वरिष्ठता आई सी संख्या 81889एन ध्रुव वर्मा (मैक) के नीचे, प्रकाशित किये जायें।

प्रकाश कुमार सिंह,
मेजर
एमएस 8बी

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 42, दिनांक 16 फरवरी 2018—राष्ट्रपति द्वारा सहर्षपूर्वक निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख से ₹15600—39100/— (पे बैंड-3) ₹ 5400/— (ग्रेड पे) के वेतनमान में दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में अस्थायी वैज्ञानिक 'बी' (ग्रुप ए) के पद पर नियुक्त किया जाता है :—

पिन संख्या	नाम	स्थापना/प्रयोगशाला	नियुक्ति की तिथि
2015AB1078	श्री गयासुद्दीन कुरैषी	ए डी आर डी ई, आगरा	21.12.2015
2015AB1080	सुश्री अनीशी गुप्ता	ए एन यू आर ए जी, हैदराबाद	21.12.2015
2015AB1077	सुश्री सपना खरवार	सी एफ ई ई एस. दिल्ली	26.11.2015
2014AB1037	श्री सस्य श्याम येल्ला	सी वी आर डी ई, चेन्नई	01.08.2014
2015AB1093	श्री वीरागोनी संदीप	डी आर डी एल. हैदराबाद	07.12.2015
2014AB1012	श्री नितीन कुमार	एल आर डी ई, बंगलौर	01.08.2014
2014AB1016	श्री पटेल तनय सोमनाथ	पी एक्स ई. बालासौर	04.08.2014
2015AB1085	श्री महेन्द्र कुमार आर्य	एस ए एस ई. चंडीगढ़	07.12.2015
2014AB1008	श्री बल्लेडा किरण भार्गव	एस एस पी एल. दिल्ली	01.08.2014

राष्ट्रपति द्वारा सहर्षपूर्वक निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख से ₹15600—39100/— (पे बैंड-3) ₹ 6600/— (ग्रेड पे) के वेतनमान में एक वर्ष की परीक्षा अवधि पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में अस्थायी वैज्ञानिक 'सी' (ग्रुप ए) के पद पर नियुक्त किया जाता है।

पिन संख्या	नाम	स्थापना/प्रयोगशाला	नियुक्ति की तिथि
2017AC1001	श्री दीपू एस कृष्णन	मुख्यालय—एस पी आई सी, दिल्ली	10.04.2017
2016AC1004	श्री गौरव वशिष्ठ	मुख्यालय—एस पी आई सी, दिल्ली	18.07.2016

अंजुम सिद्दीकी,
उप-निदेशक /कार्मिक (डी आर डी एस-II)

थल सेना शाखा

सं. 43, दिनांक 19 फरवरी 2018—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

सेना चिकित्सा कोर

सर्ज कम्मोडोर (व समकक्ष) से सर्ज रियर एडमिरल (व समकक्ष) के पद पर

जी विश्वनाथ (एमआर-04662ए) (75286-बी)	—	19-06-17, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 14-04-17 से दी जाती है ।
एस बाजपेयी (एमआर-04782वाई)	—	24-06-17, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-05-17 से दी जाती है ।
जे चैटर्जी (एमआर-04744एच) (75291-आर)	—	06-12-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 18-11-16 से दी जाती है ।

भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 01 जुलाई 2017 को प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना जो कि सर्ज रियर एडमिरल पदोन्नति से संबंधित है, जिसका सम्बन्ध उपर्युक्त अधिकारी से है, उसे रद्द किया जाता है ।

गुप कैप्टन (व समकक्ष) से एयर कम्मोडोर (व समकक्ष) के पद पर

एस शर्मा (एमआर-06496डब्ल्यू)(एफ-19320-जी)	—	21-06-17, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-04-17 से दी जाती है ।
--	---	---

सर्जन कैप्टन (व समकक्ष) से सर्जन कम्मोडोर (व समकक्ष) के पद पर

ए ए करमकर (एमआर-05736डब्ल्यू)(75423-आर)	—	05-05-17, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01-04-17 से दी जाती है ।
एन के महेश, वीएसएम (एमआर-05745एक्स)(75424-टी)	—	01-06-17
एस रंजन, एनएम (एमआर-06701एम)(75498-के)	—	10-07-17, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 24-06-17 से दी जाती है ।
ए कपूर, एनएम (एमआर-05629पी)(75410-के)	—	24-11-16, वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 19-10-16 से दी जाती है ।

ले. कर्नल से कर्नल (कालमान) के पद पर

एमआर-06529डब्ल्यू	ले. कर्नल	वी बी त्रिपाठी	04 दिसंबर 2017
-------------------	-----------	----------------	----------------

मेजर से ले कर्नल के पद पर

नाम	एम आर	पदोन्नति तारीख	पदोन्नति प्राधिकरण पत्र संख्या
मधु प्रताप सिंह	एमआर--08237-एम	20 सितम्बर 2017	222/विविध/डीजीएफएमएस/डीजी-1बी(i) दिनांक 18 अगस्त 2017
कमाल कुमार देब	एमआर--08812-एच	22 सितम्बर 2017	222/विविध /डीजीएफएमएस/डीजी-1बी(i) दिनांक 03 जुलाई 2017
अविनाश मिश्रा	एमआर--08774- एक्स	22 सितम्बर 2017	222/विविध/डीजीएफएमएस/डीजी-1बी(i) दिनांक 03 जुलाई 2017
खलील एम	एमआर-08915-एफ	22 सितम्बर 2017	222/विविध /डीजीएफएमएस/डीजी-1बी(i) दिनांक 03 जुलाई 2017

सामुअल लालरिनतूलूअन्गा	एमआर--09102-एक्स	13 अक्तूबर 2017	222/विविध/डीजीएफएमएस/डीजी-1बी(i) दिनांक 01 सितम्बर 2017
मगेश कुमार	एमआर--08974-एन	22 सितम्बर 2017	222/विविध/डीजीएफएमएस/डीजी-1बी(i) दिनांक 18 अगस्त 2017
हृषिकेश मगदूम	एमआर-08919-एक्स	22 सितम्बर 2017	222/विविध /डीजीएफएमएस/डीजी-1बी(i) दिनांक 03 जुलाई 2017
अचिंता के आर मल्लिक	एमआर--08955- एच	06 अक्तूबर 2017	222/विविध /डीजीएफएमएस/डीजी-1बी(i) दिनांक 01 सितम्बर 2017
विकास कुमार	एमआर-08933- के	22 सितम्बर 2017	222/विविध /डीजीएफएमएस/डीजी-1बी(i) दिनांक 03 जुलाई 2017
डी वी भार्गव	एमआर-08174-पी	27 दिसम्बर 2016	222/विविध /डीजीएफएमएस/डीजी-1बी(i) दिनांक 29 सितम्बर 2016
वरुण जेरथ	एमआर -08923-ए	17 सितम्बर 2017	222/विविध /डीजीएफएमएस/डीजी-1बी(i) दिनांक 03 जुलाई 2017
पुनीत सिंह	एमआर-08794-एल	22 सितम्बर 2017	222/विविध /डीजीएफएमएस/डीजी-1बी(i) दिनांक 03 जुलाई 2017
अभिषेक कुमार	एमआर-07879-पी	04 जनवरी 2015	222/विविध/डीजीएफएमएस/डीजी-1बी(i) दिनांक 19 जुलाई 2017
राहुल झा	एमआर-08697-एन	12 अप्रैल 2016	222/विविध /डीजीएफएमएस/डीजी-1बी(i) दिनांक 19 जुलाई 2017
शरद कुमार गोयल	एमआर-09233एच	25 अप्रैल 2016	222/विविध /डीजीएफएमएस/डीजी-1बी(i) दिनांक 19 जुलाई 2017
संदीप शर्मा	एमआर-08127- एक्स	09 अगस्त 2016	222/विविध /डीजीएफएमएस/डीजी-1बी(i) दिनांक 19 जुलाई 2017
संजया कुमार गुप्ता	एमआर-09415-डब्ल्यू)	02 अगस्त 2017	222/विविध /डीजीएफएमएस/डीजी-1बी(i) दिनांक 03 जुलाई 2017
शैलेन्द्र कुमार	एमआर--08493-एफ	17 फरवरी 2015	222/विविध/डीजीएफएमएस/डीजी-1बी(i) दिनांक 19 जुलाई 2017
कुमार संजय निराला	(एमआर-07921एच)	22 फरवरी 2015	222/मेजर/डीजीएफएमएस/डीजी-1बी(i) दिनांक 19 जुलाई 2017
विनोद कुमार	एमआर-08151-एन	27 दिसम्बर 2016	222/विविध/डीजीएफएमएस/डीजी-1बी(i) दिनांक 29 सितम्बर 2016
राज नारायन मण्डल	एमआर- 09125-वाई	22 सितम्बर 2017	222/विविध /डीजीएफएमएस/डीजी-1बी(i) दिनांक 03 जुलाई 2017
तेजिंदर सिंह	एमआर-08917-एम	22 सितम्बर 2017	222/विविध /डीजीएफएमएस/डीजी-1बी(i) दिनांक 03 जुलाई 2017
अनूप कुमार	एमआर-08785-के	17 सितम्बर 2017	222/विविध /डीजीएफएमएस/डीजी-1बी(i) दिनांक 03 जुलाई 2017
अमित कुमार कामेवाड	एमआर-08916-के	22 सितम्बर 2017	222/विविध/डीजीएफएमएस/डीजी-1बी(i) दिनांक 03 जुलाई 2017

अभिषेक भारद्वाज	एमआर- 09250-एच	22 सितम्बर 2017	222/विविध /डीजीएफएमएस/डीजी-1बी(i) दिनांक 03 जुलाई 2017
बिजु आर	एमआर-08795-एन	22 सितम्बर 2017	222/विविध /डीजीएफएमएस/डीजी-1बी(i) दिनांक 03 जुलाई 2017
सौरभ वशिष्ठ	एमआर-08952-पी	17 सितम्बर 2017	222/विविध /डीजीएफएमएस/डीजी-1बी(i) दिनांक 03 जुलाई 2017
नितिन शर्मा	एमआर--08796-डब्ल्यू	22 सितम्बर 2017	222/विविध/डीजीएफएमएस/डीजी-1बी(i) दिनांक 03 जुलाई 2017
जे जॉन मागेश कुमार	एमआर-008814-एन	22 सितम्बर 2017	222/विविध /डीजीएफएमएस/डीजी-1बी(i) दिनांक 03 जुलाई 2017
हरविंदर सांगवान	एमआर 08914-वाई	22 सितम्बर 2017	222/विविध /डीजीएफएमएस/डीजी-1बी(i) दिनांक 03 जुलाई 2017
दिलेश पी के	एमआर- -08792-ए	22 सितम्बर 2017	222/विविध/डीजीएफएमएस/डीजी-1बी(i) दिनांक 03 जुलाई 2017
सुरभि शर्मा	एमआर-08793-एच	22 सितम्बर 2017	222/विविध /डीजीएफएमएस/डीजी-1बी(i) दिनांक 3 जुलाई 2017

स्क्वाड्रन लीडर से विंग कमांडर के पद पर

रोहित वशिष्ठ	(एमआर-09057-डब्ल्यू) (ए एफ-28410-के)	-16 दिसम्बर 2016
अरुण कुमार पात्रा	(एमआर-09058-वाई) (ए एफ-28938-आर)	-16 दिसम्बर 2016
अमृता परमार	(एमआर-09146-पी) (ए एफ-27679-ए)	-27 दिसम्बर 2016
संजय कुमार	(एमआर-08156-एम) (ए एफ-27675-जी)	-27 दिसम्बर 2016
राहुल देव चौहान	(एमआर-08158-एक्स) (ए एफ-27677-एन)	-27 दिसम्बर 2016

फ्लाइट लेफ्टिनेंट से स्क्वाड्रन लीडर के पद पर

तेजवीर सिंह	(एमआर-09390-पी) (ए एफ-32370-एल)	- 23 फरवरी 2017
-------------	---------------------------------	-----------------

नाम	एम आर/एफ	पदोन्नति तारीख	पदोन्नति प्राधिकरण पत्र संख्या
शिवाली बंसल	(एम आर-09335-वाई)/ (एफ-32366-एच)	23 फरवरी 2017	222/मेजर/डीजीएफएमएस/ डीजी-1बी (i) दिनांक 13.12.2016
निधि गोयल	(एम आर-09337-के)/ (एफ-32367-एल)	23 फरवरी 2017	222/मेजर/डीजीएफएमएस/ डीजी-1बी(i) दिनांक 13.12.2016
अनिकेत शर्मा	(एम आर-09365-डब्ल्यू)/ (एफ-32368-आर)	23 फरवरी 2017	222/मेजर/डीजीएफएमएस/ डीजी-1बी(i) दिनांक 13.12.2016

कैप्टन से मेजर के पद पर

नाम	एम आर	पदोन्नति तारीख	पदोन्नति प्राधिकरण पत्र संख्या
उपाध्ये मनोज अरुण	(एमआर-09767- एन)	19 अप्रैल 2017	222/मेजर/डीजीएफएमएस/डीजी-1बी(i) दिनांक 28 मार्च 2017
प्रवीण बजाज	(एमआर-09768- डब्ल्यू)	06 अगस्त 2017	222/मेजर/डीजीएफएमएस/डीजी-1बी(i) दिनांक 20 जुलाई 2017
मनिष संधु	(एमआर-09378- एन)	23 फरवरी 2017	222/मेजर/डीजीएफएमएस/डीजी-1बी(i) दिनांक 13 दिसम्बर 2016

शिवानी मिश्रा	(एमआर-09771-डब्ल्यू)	12 सितम्बर 2017	222/मेजर/डीजीएफएमएस/डीजी-1बी(i) दिनांक 20 जुलाई 2017
अक्षय भटनागर	(एमआर-09782-एच)	23 फरवरी 2017	23056/पदोन्नति/डीजीएफएमएस/डीजी-1बी(ii) दिनांक 05 जनवरी 2017
अंजू पन्नु	(एमआर-09862-ए)	13 अगस्त 2017	23056/पदोन्नति/डीजीएफएमएस/डीजी-1बी(ii) दिनांक 26 मई 2017
इकरूप कौर सहोता	(एमआर-09746-एक्स)	06 नवम्बर 2016	222/मेजर/डीजीएफएमएस/डीजी-1बी(i) दिनांक 04 अगस्त 2016

बी श्रीधर,
ब्रिगेडियर
उप महानिदेशक (मा.स.)

सं. 44, दिनांक 20 फरवरी 2018—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित एम एन एस अधिकारी को उनके नाम के समक्ष दर्शायी गयी तिथि से पदोन्नति प्रदान करते हैं :—

नियमित सेना
मिलिट्री नर्सिंग सेवा
स्थायी कमीशन

ले. कर्नल(समयमान) से ले. कर्नल (सेलेक्ट)

पद और नाम	व्यक्तिगत संख्या	पदोन्नति की तारीख
ले० कर्नल रीतम्मा वर्गीस	एन आर—18953 एल	17 अक्टूबर 2016
ले० कर्नल आर पदमा हैपसिबा	एन आर—19127 एक्स	05 जून 2017
ले० कर्नल वीना भट्टी	एन आर—19165 एन	02 अगस्त 2017
ले० कर्नल आर विजय रानी	एन आर—19189 एक्स	04 अगस्त 2017
ले० कर्नल वल्सा सी ओ	एन आर—19201 एन	08 सितम्बर 2017
ले० कर्नल वलसम्मा डोमनिक	एन आर—19212 ए	11 सितम्बर 2017
ले० कर्नल प्रेभा मैथ्यू	एन आर—19229 एन	25 सितम्बर 2017
ले० कर्नल मेरी सूसना	एन आर—18945 एम	27 मार्च 2017
ले० कर्नल सुधा वी	एन आर—19121 डब्ल्यू	19 अप्रैल 2017
ले० कर्नल ग्रेसी छिबू	एन आर—19139 एम	12 जून 2017
ले० कर्नल एम निर्मला	एन आर—19172 के	11 सितम्बर 2017
ले० कर्नल शोभना पी	एन आर—19195 एल	06 सितम्बर 2017
ले० कर्नल एलसम्मा जोसफ	एन आर—19215 एन	13 सितम्बर 2017
ले० कर्नल लता कुमारी यू	एन आर—19270 के	01 अक्टूबर 2017

एन एस से एन आर

पद और नाम	व्यक्तिगत संख्या	अल्प अवधि आयोग में कमीशन की तारीख	स्थायी कमीशन की तारीख
मेजन मेधा रावत	एन एस—21686 ए	23 अगस्त 2007	23 सितम्बर 2016
मेजन ए ग्रेस धाना मारग्रेट	एन एस—21722 ए	24 मार्च 2008	23 सितम्बर 2016
मेजन विश्वभारती	एन एस—21744 वाई	24 मार्च 2008	23 सितम्बर 2016
कैप्टन कल्पना कापसे	एन एस—21820 ए	01 मार्च 2012	23 सितम्बर 2016

कैप्टन निशा शर्मा	एन एस-22932 एम	01 मार्च 2012	23 सितम्बर 2016
कैप्टन अखिला ए एस	एन एस-22933 पी	01 मार्च 2012	23 सितम्बर 2016
कैप्टन निशा एस एन	एन एस-22938 एन	01 मार्च 2012	23 सितम्बर 2016
कैप्टन रशमी तिवारी	एन एस-22943 वाई	01 मार्च 2012	23 सितम्बर 2016
कैप्टन अंसु एस	एन एस-22958 एफ	01 मार्च 2012	23 सितम्बर 2016

कैप्टन से मेजर

पद और नाम	व्यक्तिगत संख्या	पदोन्नति की तारीख
मेजर प्रेरणा दीक्षित	एन आर-22377 क	07 अगस्त 2017
मेजर चन्दना सी	एन आर-22378 एम	07 अगस्त 2017
मेजर गीता देवी	एन आर-22379 पी	07 अगस्त 2017
मेजर गीतांजली सहगल	एन आर-22380 क	07 अगस्त 2017
मेजर भावना गौर	एन आर-22381 एम	07 अगस्त 2017
मेजर सुनीता देवी	एन आर-22382 पी	07 अगस्त 2017
मेजर लोरेना डोरथी प्रकाश	एन आर-22383 एक्स	07 अगस्त 2017
मेजर दीपिका शेरौन	एन आर-22384 ए	07 अगस्त 2017
मेजर नीलम चंद	एन आर-22385 एच	07 अगस्त 2017
मेजर प्रियंका चौबे	एन आर-22386 एल	07 अगस्त 2017
मेजर क्रिस्टीना	एन आर-22387 एन	07 अगस्त 2017
मेजर सानिया ठाकुर	एन आर-22388 डब्ल्यू	07 अगस्त 2017
मेजर अर्चना शर्मा	एन आर-22389 वाई	07 अगस्त 2017
मेजर सूमित मैथ्यू	एन आर-22390 एन	07 अगस्त 2017
मेजर सुमन कुमारी	एन आर-22391 डब्ल्यू	07 अगस्त 2017
मेजर कंचन बाला कुण्डाल	एन आर-22392 वाई	07 अगस्त 2017
मेजर प्रतिभा रानी	एन आर-22393 वाई	07 अगस्त 2017
मेजर रजनी आर	एन आर-22395 एम	07 अगस्त 2017
मेजर सीजो के थॉमस	एन आर-22396 पी	07 अगस्त 2017
मेजर सीता देवी	एन आर-22397 एक्स	07 अगस्त 2017
मेजर जीजी वी नायर	एन आर-22398 ए	07 अगस्त 2017
मेजर शीतल	एन आर-22399 एच	07 अगस्त 2017
मेजर उषा पान्डे	एन आर-22401 पी	07 अगस्त 2017
मेजर दीपा बिष्ट	एन आर-22402 एक्स	07 अगस्त 2017
मेजर सविता पान्डे	एन आर-22403 ए	07 अगस्त 2017
मेजर सुमन वर्मा	एन आर-22404 एच	07 अगस्त 2017
मेजर रिनी राज	एन आर-22405 एल	07 अगस्त 2017
मेजर अस्वाथी दास	एन आर- 22281 एफ	05 मार्च 2017
मेजर जीना थॉमस	एन आर- 22291 एल	05 मार्च 2017
मेजर अखिला जी एस	एन आर- 22292 एन	05 मार्च 2017
मेजर दर्शना के	एन आर- 22295 एफ	05 मार्च 2017
मेजर सौम्या टी	एन आर- 22296 के	05 मार्च 2017
मेजर रेणुका डी आर	एन आर- 22297 एम	05 मार्च 2017
मेजर आर वी शिल्पा	एन आर- 22301 के	05 मार्च 2017
मेजर रुबी जोस	एन आर- 22302 एम	05 मार्च 2017
मेजर बंदेला मनी	एन आर- 22321 एक्स	05 मार्च 2017
मेजर रेजिला वी	एन आर- 22325 एन	05 मार्च 2017
मेजर यशसविनी	एन आर- 22326 डब्ल्यू	05 मार्च 2017
मेजर टीना शेरपा	एन आर- 22328 एफ	05 मार्च 2017
मेजर रेंजुमोल के	एन आर- 22332 के	05 मार्च 2017
मेजर ज्योति जोस	एन आर- 22346 के	05 मार्च 2017
मेजर भुवनेश्वरी डी	एन आर- 22359 एफ	05 मार्च 2017
मेजर राजेश्वरी एम यू	एन आर- 22363 के	05 मार्च 2017

मेजर लावण्या एल वी	एन आर— 22365 पी	05 मार्च 2017
मेजर रजनी ए	एन आर— 22366 एक्स	05 मार्च 2017
मेजर जासमिन जॉय	एन आर— 22367 ए	05 मार्च 2017

ले० से कैप्टन

पद और नाम	व्यक्तिगत संख्या	पदोन्नति की तारीख
कैप्टन मीरा जोसफ	एन आर—23357 एच	01 मार्च 2017
कैप्टन दीपिका	एन आर—23358 एल	01 मार्च 2017
कैप्टन प्रेरना भारद्वाज	एन आर—23359 एन	01 मार्च 2017
कैप्टन ममता शर्मा	एन आर—23360 एच	01 मार्च 2017
कैप्टन दीपिका कुमारी द्विवेदी	एन आर—23362 एन	01 मार्च 2017
कैप्टन सूर्य एस नायर	एन आर—23363 डब्ल्यू	01 मार्च 2017
कैप्टन कंचन यादव	एन आर—23364 वाई	01 मार्च 2017
कैप्टन सुजु प्रधान	एन आर—23365 एफ	01 मार्च 2017
कैप्टन बैदी कुमारी	एन आर—23366 के	01 मार्च 2017
कैप्टन श्री कुटी एस कुमार	एन आर—23367 एम	01 मार्च 2017
कैप्टन मरियम सूसान उम्मेन	एन आर—23368 पी	01 मार्च 2017
कैप्टन निकिता प्रधान	एन आर—23369 एक्स	01 मार्च 2017
कैप्टन जिस्मी जोसफ	एन आर—23370 एम	01 मार्च 2017
कैप्टन पूजा उपाध्या	एन आर—23371 पी	01 मार्च 2017
कैप्टन मोनिका कारकी	एन आर—23372 एक्स	01 मार्च 2017
कैप्टन मंजू वी	एन आर—23373 ए	01 मार्च 2017
कैप्टन रीना	एन आर—23374 एच	01 मार्च 2017
कैप्टन नेहा त्रिवेदी	एन आर—23375 एल	01 मार्च 2017
कैप्टन सुदीपा गुरंग	एन आर—23376 एन	01 मार्च 2017
कैप्टन एस धनरानी	एन आर—23377 डब्ल्यू	01 मार्च 2017
कैप्टन याचना गुरंग	एन आर—23378 वाई	01 मार्च 2017
कैप्टन थंगलुनकीम	एन आर—23379 एफ	01 मार्च 2017
कैप्टन अनुषा थॉमस	एन आर—23380 डब्ल्यू	01 मार्च 2017
कैप्टन शिल्पा पी	एन आर—23381 वाई	01 मार्च 2017
कैप्टन बबिता चौहान	एन आर—23382 एफ	01 मार्च 2017
कैप्टन प्रवीणा प्रशकर	एन आर—23383 के	01 मार्च 2017
कैप्टन मैत्री चटर्जी	एन आर—23384 एम	01 मार्च 2017
कैप्टन थारा एस नायर	एन आर—23385 पी	01 मार्च 2017
कैप्टन पिकी जॉन	एन आर—23386 एक्स	01 मार्च 2017
कैप्टन पूजा कुमारी शॉ	एन आर—23387 ए	01 मार्च 2017
कैप्टन अलका बडगल	एन आर—23388 एच	01 मार्च 2017
कैप्टन जूही सिंह	एन आर—23389 एल	01 मार्च 2017
कैप्टन प्रेरना अले	एन आर—23390 ए	01 मार्च 2017
कैप्टन रेजिनीमोल पी टी	एन आर—23391 एच	01 मार्च 2017
कैप्टन लरीता रानी गौडा	एन आर—23392 एल	01 मार्च 2017
कैप्टन शैला मुख्या	एन आर—23393 एन	01 मार्च 2017
कैप्टन ऋतु भार्गव	एन आर—23394 डब्ल्यू	01 मार्च 2017
कैप्टन ग्रीषमा हेन्द्रय	एन आर—23395 वाई	01 मार्च 2017
कैप्टन प्रतिश सिंह सोमवंशी	एन आर—23396 एफ	01 मार्च 2017
कैप्टन सबरानी मजूमदार	एन आर—23397 के	01 मार्च 2017
कैप्टन आशा गोपीनाथ के	एन आर—23398 एम	01 मार्च 2017
कैप्टन उनसे लुंगलो	एन आर—23399 पी	01 मार्च 2017
कैप्टन इंदु राय	एन आर—23400 वाई	01 मार्च 2017
कैप्टन श्रीविद्या एस	एन आर—233401 एफ	01 मार्च 2017
कैप्टन मिंगमा लामूशेरपा	एन आर—23402 के	01 मार्च 2017

कैप्टन देऊनी सुसान	एन आर-23403 एम	01 मार्च 2017
कैप्टन तानी थम्पी	एन आर-23404 पी	01 मार्च 2017

एलिजाबेथ जॉन
मेजर जनरल
अतिरिक्त महानिदेशक
(एम एन एस)

सेना शाखा

सं. 45, दिनांक 21 फरवरी 2018—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को सहर्ष पदोन्नति करने की अनुमति प्रदान करते हैं :—

प्रादेशिक सेना
प्रादेशिक कमीशन

मेजर बनाया जाता है

कैप्टन वी पी सिंह	टीए-42728	(इन्जीनियर टीए)	28 जनवरी 2017
कैप्टन यतिष कुमार	टीए-42729	(इन्जीनियर टीए)	27 फरवरी 2017
कैप्टन सुनील कुमार	टीए-42730	(इन्जीनियर टीए)	27 फरवरी 2017
कैप्टन जी0 सी0 राजशेखर	टीए-42734	(ए0एस0सी टीए)	26 मई 2017

कैप्टन बनाया जाता है

लै0 एन श्रीनीवास रेड्डी	टीए-42643	(इन्जीनियर टीए)	08 अगस्त 2009
लै0 राधे श्याम तिवारी	टीए-42866	(इन्जीनियर टीए)	19 नवम्बर 2016
लै0 विमलेश कुमार सिंह	टीए-42886	(इन्जीनियर टीए)	07 जुलाई 2017
लै0 आषिक अमानुल्ला खान	टीए-42887	(इन्जीनियर टीए)	09 जुलाई 2017
लै0 लाल चन्द मीना	टीए-42888	(इन्जीनियर टीए)	09 जुलाई 2017
लै0 कुलदीप सिंह	टीए-42892	(इन्जीनियर टीए)	17 सितम्बर 2017
लै0 प्रमोद कुमार	टीए-42893	(इन्जीनियर टीए)	17 सितम्बर 2017
लै0 राजेश गुप्ता	टीए-42898	(इन्जीनियर टीए)	14 नवम्बर 2017
लै0 राकेश कुमार	टीए-42899	(इन्जीनियर टीए)	30 अक्टूबर 2017

माधवेन्द्र प्रताप सिंह
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 46, दिनांक 22 फरवरी 2018—राष्ट्रपति जी निम्नलिखित की सहर्ष नियुक्त करते हैं:—

नियमित सेना
स्थायी आयोग

(2/ले. के पद पर दिनांक 09 जून 1984 से)

शुद्धि पत्र

भारत सरकार के राजपत्र की अधिसूचना के शीर्षक नियमित सेवा के अन्तर्गत उपशीर्षक स्थायी आयोग 2/लेफ्टिनेन्ट के पद पर, के अन्तर्गत दिनांक 10 अगस्त 1985 को 74 आर सी पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में प्रकाशित सूचना निम्नलिखित रूप में संशोधित की जाती है :—

के लिए	—	अजई एच चौहान	आई सी-41926एन	मैक
पढ़े	—	अजय एच चौहान	आई सी-41926एन	मैक

प्रकाश कुमार सिंह,
मेजर
एएमएस 8बी

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 10th March 2018

D(MS) SECTION

No. 38 dated 9th February 2018—The President of India has made the following appointments on his Honorary Personal Staff with effect from 01 January 2018: -

HONORARY ARMY ADC

ARMD

IC-35987P Lt Gen DR Soni, VSM, ARMD

Vice

IC-35602M Lt Gen AB Shivane, PVSM, AVSM, VSM (Retired), ARMD

ARTY:AAD

IC-38879W Lt Gen Ashwani Kumar, AVSM, VSM, AAD (GC)

Vice

IC-35201X Lt Gen Ajai Kumar Sahgal, VSM (Retired), AAD

REVATI RAMAN
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 39, dated 12th February 2018—The President is pleased to make the following appointment : -

TERRITORIAL ARMY

GRANT OF COMMISSION IN THE RANK OF CAPTAIN

Parvez Ahmed	TA(M)-1236	(AMC TA)	27 Apr 2017
--------------	------------	----------	-------------

TO BE LIEUTENANT

Lt Navratan Singh Chouhan	TA-43083K	(Engr TA)	28 Jul 2017
Lt Priyank Shukla	TA-43084M	(Engr TA)	28 Jul 2017
Lt Anshumant Kumar	TA-43085P	(Engr TA)	28 Jul 2017
Lt (Mrs) Supriya Choudhary	TA-43086X	(Engr TA)	28 Jul 2017
Lt Soumya Ranjan Muduli	TA-43087A	(Engr TA)	28 Jul 2017
Deleep Kumar	TA-43076	(Engr TA)	13 Feb 2017
Inderpal Singh Yadav	TA-43077	(Engr TA)	01 May 2017
Ramadurgam Mallikarjuna	TA-43078	(Engr TA)	23 Jun 2017
Pradip Soni	TA-43079	(Engr TA)	24 Jul 2017
Rahul Kumar Pandey	TA-43080	(Engr TA)	24 Jul 2017

M P SINGH
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 40, dated 13th February 2018—The President is pleased to make the following appointments:-

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

(TO BE LTS W.E.F 10 JUN 2017)

The undermentioned 303 Gentlemen Cadets of 140 Regular Course (67 DE, 181 Ex NDA and 55 Ex ACC) are granted permanent commission in the Army in the rank of Lt wef 10 Jun 2017, under the provision of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC).

IC NO		NAME	ARM/SERVICE
82674	F	AVINASH CHHETRY	INF
82675	K	VIKAS SANGWAN	INF
82676	M	ROHIT JOSHI	ENGRS
82677	P	SHIVAM SHARMA	AC
82678	X	NAMAN BHATT	ASC
82679	A	ANMOL SHARMA	EME
82680	P	NIRBHAY SINGH SOIN	INF
82681	X	UTKARSH PANDEY	INF
82683	H	ASHUTOSH BANATHIA	INF
82684	L	VINAY BHATT	ARTY
82685	N	LIGANG KOBING	INF
82686	W	VIJAY SHIVALINGAPPA KALASHETTY	INF
82687	Y	KULDEEP SINGH	MECH
82688	F	SUBAM KHAWASH	INF
82689	K	ASHWIN DHAMANKAR	ARTY
82690	Y	ANKIT KUMAR METARIYA	ARTY
82691	F	VIKAS GOYAT	ARTY
82692	K	PRANAV BISHT	ARTY
82693	M	RAVINDER SINGH RAWAT	ARTY
82694	P	VAIBHAV SRIVASTAV	INF
82696	A	RAUNAQ HATWAL	INF
82697	H	MANJEET	INF
82698	L	KARTHIK SASIKUMAR	INF
82699	N	KARTIKAY RANA	AOC
82700	X	VISHAL SHARMA	ASC
82701	A	AAYUSH BHARDWAJ	SIGS
82702	H	RUIKAR OMKAR PRAMOD	ARTY
82703	L	ASHISH AGNIHOTRI	INF
82704	N	ABHAY SINGH RANA	AVN
82706	Y	KIRAN KANGNE	ARTY
82707	F	ABHIMANYU SINGH RATHORE	INF
82708	K	ABHIMANYU	INF
82709	M	RAHUL KATARIA	INF
82710	F	PRATHAMESH UDAY KOHALE	INF
82711	K	RAJENDER SINGH	INT
82712	M	MANISH VERMA	INF
82713	P	AASHAQ HUSSAIN KHANDAY	AOC
82714	X	HARSHIT BANKHWAL	MECH
82715	A	RAVI KUMAR SANGWAN	AC
82716	H	PURUSHOTTAM NYOL	AC
82717	L	RISHABH SHARMA	INF
82718	N	SELVASUNDARAM R	ARTY
82719	W	SAURABH THAPLIYAL	ASC
82720	L	SATINDER PAL SINGH	MECH
82721	N	ARASHDEEP SINGH DHILLON	ASC
82722	W	KUMARAGOUDA	ARTY
82723	Y	SAHIL MANHAS	ARTY

IC NO		NAME	ARM/SERVICE
82724	F	PIYUSH THAKUR	INF
82725	K	RAHUL KUMAR SINGH	ENGRS
82726	M	PURUSHOTTAM	ARTY
82727	P	VARUN MEHTA	ARTY
82728	X	ALLA VISHNU SHANMUKHAM	ARTY
82729	A	BIKRAMJIT SINGH	INF
82730	P	OINAM KHUMANLABA	INF
82731	X	AMAL C	AAD
82732	A	CHAITANYA PANDEY	INF
82733	H	ROHIT SHARMA	INF
82734	L	RAJAT SARANGAL	INF
82735	N	INDRESH PANDEY	INF
82737	Y	BISWAJIT KAR	SIGS
82738	F	AADHAR VISHNOI	ARTY
82739	K	DURGESH PAL	ARTY
82740	Y	SHAIENDRA SINGH	AOC
82741	F	RAJESH THAKRE	INF
82742	K	VISHAVROOP SINGH	INF
82743	M	BOBBY SINGH RAGHAV	AAD
82744	P	GAURAV NIRANJAN	INT
82745	X	AKASH BISHT	INF
82746	A	GAURAV	INF
82747	H	ESHAN AMARNATH	ENGRS
82748	L	PIYUSH RANJAN	AC
82749	N	VIKAS NAIR M	MECH
82752	N	ROHIT KUMAR	AAD
82753	W	DIGVIJAY SINGH DHADWAL	INF
82754	Y	MRIGANK BHARDWAJ	ARTY
82755	F	LOVISH GUPTA	INF
82756	K	ANUJ PANT	INF
82757	M	VARUN PRATAP SINGH	INF
82758	P	AJEET KUMAR	ASC
82759	X	JAYDEEP SINGH RAWAT	INF
82760	M	DIVYANSHU RAJ PANDEY	INF
82761	P	HIMANSHU FOGAT	INF
82762	X	ADARSH UNIYAL	ARTY
82763	A	RAUT PARTH MANGESH	INF
82764	H	SHUBHAM SHARMA	INF
82765	L	SHUBHAM KUMAR	ARTY
82766	N	NITIK MALIK	EME
82767	W	PRASANTA KUMAR NUNIA	SIGS
82768	Y	SUMEET SINGH SARMAL	ARTY
82769	F	CHETAN YADAV	MECH
82770	W	PRASHANT SINGH	AC
82771	Y	ROHIT BISHT	INF
82772	F	KUNAL GOSWAMI	ARTY
82773	K	ROHIT KUMAR	INF

IC NO		NAME	ARM/SERVICE
82774	M	NIKHIL SHARMA	INF
82775	P	SHAH NAWAZ	ARTY
82776	X	SANDEEP DAHIYA	INT
82777	A	DEEPANKAR TEWARI	AAD
82778	H	SARVESH RAMAN	ARTY
82779	L	AMANDEEP	INF
82780	A	SHIVAM YADAV	INF
82781	H	RAVI SHANKAR SHUKLA	ARTY
82783	N	SHASHI BHUSHAN UPRETI	INF
82784	W	DEVENDRA SINGH ADHIKARI	INF
82785	Y	NOORUS SAMAD REHMANI	ENGRS
82786	F	RATNA KASHYAP	AOC
82788	M	ABHISHEK KUMAR	EME
82789	P	KAUSHALENDER SINGH BHATI	INF
82790	K	SEMCHON HUNGRON	INF
82791	M	JAI DANG	INF
82792	P	RAVI KANT SHARMA	AVN
82793	X	ROHIT SINGH	AC
82794	A	KARUNESH PANT	ARTY
82795	H	ABHISHEK BISHT	INF
82796	L	VIKRANT	INF
82797	N	KUSHAL KHATRI	SIGS
82798	W	SUNIL SHRESTHA	ASC
82799	Y	DEEPAK SINGLA	INF
82800	H	PRIYANK SHUKLA	INF
82801	L	RABI KANT PRASAD	ASC
82802	N	GEORGEY JANS	INF
82803	W	JARKOP DOKE	INF
82804	Y	MD SAHABUDDIN	AAD
82805	F	ABHIRAJ PATHAK	AAD
82807	M	ARJUN V KANSAL	SIGS
82808	P	SALIAN THARUN DAYA	INF
82809	X	DIVAKAR BRAHAMCHARI	ARTY
82810	M	HIMANSHU DUBEY	INF
82811	P	SAVINDER THAKUR	INF
82812	X	DUSHYANT AWASTHI	ARTY
82813	A	SHASHANK RANA	INF
82814	H	SANJOK RASAILY	ENGRS
82816	N	LAKHVEER SINGH	MECH
82817	W	LAKSHAY YADAV	ARTY
82818	Y	ASISH KUMAR LIMBU	INF
82820	W	VISAD KAVILEVALAPPIL	INF
82821	Y	SURJAN SINGH	AOC
82822	F	ADITYA PRATAP SINGH RATHORE	ARTY
82823	K	SOMBIR JAKHAR	INF
82824	M	SHIVAM DIXIT	INF

IC NO		NAME	ARM/SERVICE
82825	P	TARANJOT BADWAL	ENGRS
82826	X	ANUJ	EME
82828	H	GHOHARE HRISHIKESH SUJIT	ARTY
82829	L	KAPIL YADAV	ARTY
82830	A	RAHUL PATEL	INT
82831	H	RAHUL SETH	INF
82832	L	ANUJ KUMAR	ARTY
82833	N	ANANDA K C	INF
82834	W	SATYAM	AC
82836	F	NAVEEN CHAHAR	INF
82837	K	SHIVAM DABRAL	INF
82838	M	MANJUNATH APPASAHEB PATIL	INF
82839	P	LOKESH BISHT	INF
82840	K	P ZHIIHRII JOHN MAO	INF
82841	M	RANDHIR KUMAR YADAV	AOC
82842	P	RAJ KUMAR	ARTY
82844	A	NILANSHU PANDEY	INF
82845	H	SHIVENDRA PRATAP SINGH	ASC
82846	L	ASHWIN SODHI	AAD
82847	N	AVINASH SINGH	ENGRS
82848	W	RAHUL JHA	INF
82849	Y	MANUJ KONWAR	MECH
82850	N	AMIT KUMAR SINGH	ASC
82852	Y	AASHAY ATUL DESHMUKH	ARTY
82853	F	RAJAT KISHORE	INF
82854	K	BOBBY RAJ SINGH	EME
82855	M	DEEPENDRA SINGH	INF
82856	P	CHETAN KUMAR	INF
82857	X	SHARDUL NEGI	MECH
82858	A	JASWANT SINGH GUJAR	ARTY
82859	H	CHETAN YADAV	ARTY
82860	X	ABHIK DHAR	ARTY
82861	A	ABHISHEK GUPTA	AAD
82862	H	ARJUN DHINGRA	ENGRS
82863	L	SURESH CHANDRA DEVTULYA	INF
82864	N	RAMAN SHARMA	ARTY
82865	W	CHIRANJIVI BHARDWAJ	INF
82866	Y	ATUL KUMAR SINGH	INF
82867	F	VIKAS UPADHYAY	MECH
82868	K	DEEPAK HARSHWAL	ARTY
82869	M	AJAYPAL SINGH	INF
82870	F	MINTU RAJBONGSHI	INF
82871	K	SHUBHAM GUPTA	AVN
82872	M	RAJEEV KUMAR	INF
82873	P	VARUN DUTT	ENGRS
82874	X	G SAJITH	INF

IC NO		NAME	ARM/SERVICE
82875	A	REX ROBIN	ASC
82876	H	TABISH HASAN	INF
82877	L	YOGESH RAO	INF
82878	N	DIBYAKANT MAHAPATRA	INF
82879	W	NAOREM PREMJI SINGH	ARTY
82880	L	VISHAVDEEP SINGH	INF
82881	N	AKASH KUMAR YADAV	AOC
82882	W	SARIN VK	INF
82883	Y	SUBHASH YADAV	INF
82884	F	DEEPAK PANDEY	SIGS
82885	K	MOHIT OHRI	AC
82886	M	PARBINDER KUMAR	ARTY
82887	P	ARNOB KUMAR BISWAS	AAD
82888	X	SUDHANSHU KUMAR	ARTY
82889	A	AASHIF NABILAL MOKASHI	ARTY
82890	P	SHASHI PRAKASH	ARTY
82891	X	VIRENDRA VIKRAM	INF
82892	A	NAVEEN KUMAR	SIGS
82893	H	JISHNU RAJ T R	AOC
82894	L	SHUBHANKAR SOOD	INF
82895	N	LONGJAM POSY SINGH	INF
82896	W	RATNESH KUMAR	INF
82897	Y	ISHAN ARYA	ARTY
82898	F	VIPIN V	INF
82899	K	ANIL JOSHI	MECH
82901	W	SHIVANSH TRIPATHI	INF
82902	Y	AMIT KUMAR	AAD
82903	F	NARESH G	ARTY
82904	K	SUMIT SAURAV	INF
82905	M	MANEESH KUMAR	MECH
82906	P	RANJEET SINGH RAJPUT	INF
82907	X	ISHAN SINGH PARIHAR	ARTY
82908	A	ASHVANI KUMAR SHUKLA	INF
82909	H	UTISTH KUMAR	INF
82910	X	ANURAG BENIWAL	AC
82911	A	BHANU PRATAP MISHRA	ARTY
82912	H	SABIR AHMED MAZUMDER	EME
82913	L	AMEET SINGH LADHI	INF
82914	N	NABAJIT SAIKIA	ARTY
82916	Y	ASHISH RANA	ASC
82920	F	RAVI KANT	INF
82921	K	GAURAV SINGH	ENGRS
82923	P	SARVESH OJHA	INF
82924	X	ROHIT RANA	ARTY
82925	A	ANKIT DAS	ENGRS

IC NO		NAME	ARM/SERVICE
82926	H	SAURAV SINGH	INF
82927	L	V DINESH	ARTY
82928	N	DURGAPRASAD MOHANTY	MECH
82929	W	AMIT JOSHI	ARTY
82931	N	NIKHIL CHAUDHARY	SIGS
82934	F	VEDAVYAS S KAMATH	AC
82935	K	NARENDER SINGH	ARTY
82936	M	MILIND KUMAR	ARTY
82937	P	HIMMAT SINGH	INF
82938	X	SACHIN KUMAR	INF
82939	A	NIKHIL A NATH	AAD
82940	P	DHARMENDER	EME
82941	X	BIR BIRENDER SINGH KATOCH	INF
82942	A	SURAJ RAI	INF
82943	H	AKASH	ARTY
82945	N	TUSHAR MANE	INF
82946	W	MUNDHE AMIT SUBHASH	AOC
82947	Y	AAYUSH CHAUHAN	INF
82948	F	SURYAMANI GOSWAMI	ASC
82949	K	SHRINIKET CHANDRAKANT VEER	INF
82950	Y	ANKIT KUMAR	INF
82951	F	MAYANK MALVIYA	AAD
82952	K	GAURAV BISHT	INF
82953	M	SURENDER SINGH RAWAT	INF
82954	P	SUHAIL AHMAD	INF
82955	X	RITESH KUMAR	INF
82956	A	ABHISHEK CHAUDHARY	MECH
82957	H	MRINAL YADAV	ENGRS
82958	L	ANSHUL PHOGAT	ASC
82959	N	AMIT KUMAR	INF
82960	H	BHARAT PANDEY	ARTY
82961	L	DEVENDRA SINGH	AC
82962	N	DAPENDER SINGH KOUNDEL	INF
82963	W	NITISH KUMAR	ARTY
82964	Y	KARTIKAY SHARMA	ENGRS
82965	F	MANORANJAN KUMAR	ARTY
82967	M	MALLIKARJUN BISANAL NAIKODI	INF
82968	P	Y DEEPAN SANJAY	ARTY
82969	X	SAHIL SHARMA	INF
82970	M	AJAY PRATAP SINGH BHANDARI	INT
82971	P	INDERJEET SINGH	ARTY
82972	X	ANIKET CHATURVEDI	ARTY
82973	A	JAIBIR RANA	AOC
82974	H	RAJAT KUMAR SINGH BHADAURIA	ARTY

IC NO		NAME	ARM/SERVICE
82977	W	ABHISHEK KASHYAP	INF
82979	F	JASKIRATH SINGH MAKOL	INF
82981	Y	RAHUL SINGH	INF
82985	P	CHANDBHAIGARI MAKARUDDIN	INF
82986	X	ROHIT PAHAL	INF
82987	A	RISHI RAJ SINGH JODHA	AC
82988	H	PREMACHANDRA REDDY N	INF
82989	L	YADU KRISHNAN P S	ARTY
82990	A	SAURAV KUMAR SINGH	INF
82991	H	PERUGU PRADEEP REDDY	INF
82995	Y	ANKITESH BADOLA	ENGRS
82996	F	SURAJ SINGH PARMAR	ARTY
82997	K	SAHIL RISHI	ARTY
82998	M	GAURAV YADAV	INF
82999	P	RAJVIR SINGH	AOC
83000	W	NAVEEN SINGH RAWAT	INF
83001	Y	SHIVAM SHARMA	ARTY
83003	K	RAHUL ARORA	EME
83004	M	DILAWAR SINGH	INF
83007	A	MANOJ SINGH BISHT	ARTY
83008	H	SANTOSH KUMAR	INF
83009	L	PRANJAL ARYA	MECH
83010	A	GYANENDRA PRAKASH MISHRA	INF
83011	H	GOLHAR VIKRANT DEVIDAS	INF
83013	N	MUBARAK SINGH PADDA	ASC
83014	W	NIKAM PRANAV RAJENDRA	ARTY
83015	Y	AMAN SUNDRIYAL	AC
83016	F	BALVIR SINGH	ASC

(TO BE LTS W.E.F. 10 DEC 2016)

The undermentioned nine Gentleman Cadet of 139 Regular Course is granted permanent commission in the Army in the rank of Lt. w.e.f 10 Dec 2016 under the provision of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC), as amended.

KRISHNA KUMAR PANDEY (IC-82238K) ARTY seniority next below SEWAK RAI (IC-82237F) ASC, YASH YADAV (IC-82278L) INF seniority next below JITENDER YADAV (IC-82277H) INF, GAURAV PRAKASH TAVHARE (IC-82317Y) INF seniority next below ADITYA SHARMA (IC-82316W) INF, VISHANT SHARMA (IC-82415Y) ARTY seniority next below ASHISH GOSWAMI (IC-82414W) ARTY, SHUBHAM VIKRAM (IC-82416F) ARTY seniority next below VISHANT SHARMA (IC-82415Y) ARTY, ANAND PANDEY (IC-82467P) INF seniority next below MAYANK DESHWAL (IC-82466M) INF, DIGVIJAY SINGH PATHANIA (IC-82472A) INF seniority next below SACHIN VERMA (IC-82471X) ARTY, VAIBHAV PRAMOD (IC-82251N) INF seniority next below JERRY M J (IC-82250L) ARTY, PARBHAT SINGH (IC-82400W) INF seniority next below BISEN VINAY CHARAN (IC-82399M) ARTY, whose name appeared in the Gazette of India

(TO BE LTS W.E.F. 11 JUN 2016)

The undermentioned Six Gentleman Cadet of 138 Regular Course is granted permanent commission in the Army in the rank of Lt. w.e.f 11 Jun 2016 under the provision of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC), as amended.

DEEP CHANDRA (IC-81539F) AOC seniority next below NIKHIL AGARWAL (IC-81538Y) ARTY, SACHIN RATHI (IC-81548H) EME seniority next below DEBASISH SARMA (IC-81547A) ASC, SIDDHARTHA SHEKHAR SHUKLA (IC-81627X) MECH seniority next below ANTRIKSH FOTEDAR (IC-81626P) INF, APU THENGAL (IC-81630X) AVN seniority next below UDAYKUMAR DEEPAKRAO CHATAP (IC-81629H) EME, ARIJIT MANDAL (IC-81642M) ENGRS seniority next below PRASHANT MISHRA (IC-81641K) ARTY, ABHIMANYU ALIS KUNDAN KUMAR (IC-81793L) ARTY seniority next below ANURAG SOLANKI (IC-81792H) ARTY, whose name appeared in the Gazette of India.

(TO BE LTS W.E.F. 13 JUN 2015)

The undermentioned five Gentleman Cadet of 136 Regular Course is granted permanent commission in the Army in the rank of Lt. w.e.f 13 Jun 2015 under the provision of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC), as amended.

ADITYA BISHT (IC-80252X) INF seniority next below AMIT KUMAR (IC-80251P) MECH COMMA GAJANAN GANGADHAR PATTANSHETTI (IC-80316X) INF seniority next below AMIT KUMAR (IC-80315P) AOC COMMA MALIPEDDI UMA MAHESHWARA RAO (IC-80484W) INF seniority next below ADARSH CHOURSIYA (IC-80483N) EME COMMA HARIOM MISHRA (IC-80553F) INF seniority next ANURAG PAREEK (IC-80552Y) MECH COMMA PARMA SANKET SIDDHESHWAR (IC-80598F) SIGS seniority next SANTOSH SINGH (IC-80597Y) INF whose name appeared in the Gazette of India.

The under mentioned 116 (One Hundred twelve) Gentlemen Cadets of 10+2 TES-28 Course are granted permanent commission in the Army in the rank of Lt w.e.f. 10 Dec 2016 under the provision of AI 3/99.

IC No		Name	Arms/Services
82505	A	B PRABHU DEVAN	AVN
82506	H	PUSHPENDRA CHOUDHARY	ARTY
82507	L	GIRISH A MASTI	EME
82508	N	ADITYA	SIGS
82509	W	ROHIT KUMAR	ARTY
82510	L	NISHCHAY CHAHAL	INF
82511	N	YATIN ARORA	SIGS
82512	W	AMRITPAL SINGH	EME
82513	Y	BHAVESH MAHAJAN	SIGS
82514	F	JAI SURYA SHUKLA	EME
82515	K	BILAL AHMED KHAN	AC
82516	M	AJAY KUMAR TIWARI	EME
82517	P	SHUBHAM JOSHI	SIGS
82518	X	AVITOSH SINGH TOMAR	INF
82519	A	VIPUL MAMGAIN	EME
82520	P	AADHAR BHARDWAJ	AC
82521	X	PRAVEEN SINGH	ARTY
82523	H	KSHITIJ KABRA	SIGS
82524	L	SHUBHAM PATHAK	ENGRS
82525	N	SINGH ROHIT SHAMBHUNATH SINGH	SIGS

IC No		Name	Arms/Services
82526	W	AMIT DALAL	ARTY
82527	Y	MANIK PREET SINGH SANDHU	AC
82528	F	AMIT SUHAG	EME
82529	K	AKHIL CHAUDHARY	ENGRS
82530	Y	DEEPAK VASHISTH	ENGRS
82531	F	KANISHKA BABU PILLAI	SIGS
82532	K	ASHISH DHILLON	ENGRS
82533	M	AAYUSH PAWAR	SIGS
82534	P	SANJAY PANDEY	INF
82535	X	SAGAR SHRIRANG KHARE	ARTY
82536	A	ABHIMANYU YADAV	INF
82537	H	PARVEEN KUMAR SIYAG	ENGRS
82538	L	NEERAJ VERMA	INT
82539	N	AKARSH SHARMA	INF
82540	H	DHRUV KUMAR	EME
82541	L	SANCHIT SAMBYAL	INF
82542	N	AVNISH SINGH	MECH
82543	W	VIVEK SANKAR	ENGRS
82544	Y	JUNED ANSARI	EME
82545	F	BUKKA VENKATESH	ENGRS
82546	K	ARUN S	EME
82547	M	DEEPAK DABAS	SIGS
82548	P	SAGAR SINGH	ENGRS
82549	X	PRANAV JOSHI	EME
82550	M	OM SINGH	AOC
82551	P	SACHIN MISHRA	SIGS
82552	X	MORE SWAPNIL SUNIL	ENGRS
82553	A	PARVEEN SINGH	EME
82554	H	GAURAV VERMA	ENGRS
82555	L	LAISHRAM BIKESH SINGH	INF
82556	N	NIGIBH SHARMA	SIGS
82557	W	VISHAL RANA	INF
82558	Y	MADHUR CHAUHAN	ENGRS
82559	F	JERRY VARKEY PAUL	EME
82560	W	PALLAB JUTI SENAPATI	ENGRS
82561	Y	ANGAD SINGH GURM	ENGRS
82562	F	VISHAL KHATRI	AAD
82563	K	ROHAN PANCHAL	AOC
82564	M	DEEPAK SHARMA	SIGS
82565	P	SHUBHAM PANDEY	INF
82566	X	AYYAR CHINMAY VILAS	EME
82567	A	HIMANSHU GUPTA	EME
82568	H	AKSHAY JOHRI	SIGS
82569	L	K ABHAY	SIGS
82570	A	YATHARTH GUPTA	AVN
82571	H	ARJUN SINGH RANA	EME
82572	L	HITESH KUMAR	EME

IC No		Name	Arms/Services
82573	N	GURMEET SINGH KHANUJA	ENGRS
82574	W	AJAY THOMAS	INF
82575	Y	PAWAN KUMAR PANDEY	ENGRS
82576	F	SANKALP DUBEY	SIGS
82577	K	SOURABH YADAV	ARTY
82579	P	AMIT KUMAR	SIGS
82580	K	MANTOJU DHEERAJ	ENGRS
82581	M	RISHABH VERMA	EME
82582	P	DURGA PRATAP YADAV	EME
82583	X	ALEXIUS SEBASTIAN	EME
82584	A	KALE OMKAR YOGENDRA	ARTY
82585	H	OM PRAKASH DWIVEDI	ENGRS
82586	L	P SREENATH	EME
82587	N	KRISHNA REDDY	EME
82588	W	PAWAN KUMAR ROHILLA	EME
82589	Y	VARUN SHARMA	SIGS
82590	N	HARSHIT KALIA	ENGRS
82591	W	SIDDHARTH MALIK	SIGS
82592	Y	DEEPAK RANJAN PATTNAYAK	SIGS
82593	F	RAGHVENDRA PRATAP SINGH	INF
82594	K	PRADEEP ATTRI	SIGS
82595	M	SANJEEV KUMAR	SIGS
82596	P	AKASH KAUSHIK	INF
82597	X	SUSHANT SHARMA	ENGRS
82598	A	ANKUSH THAKUR	INF
82599	H	DHRUV KISHORE SHARMA	ENGRS
82601	P	SHUBHAM GAUR	ENGRS
82602	X	ARYAN ABHAY SINGH	INF
82603	A	SANTOSH GUPTA	EME
82604	H	SAHIL GAUR	EME
82605	L	ABHISHEK SINGH	EME
82606	N	PANKAJ KUMAR	EME
82607	W	TUSHAR SHARMA	INF
82608	Y	SHARAVANAKUMR J	ARTY
82609	F	RISHABH TYAGI	ENGRS
82610	W	RAJAT KUMAR MISHRA	ENGRS
82611	Y	ABHISHEKH KUMAR	AOC
82612	F	HASHIR AHMAD	SIGS
82613	K	SUMIT YADAV	EME
82614	M	KASHISH ROHILLA	SIGS
82615	P	AAYUSH SHARMA	SIGS
82616	X	ABHIMANYU RAKESH KUMAR	EME
82617	A	ISHPREET SINGH	ARTY
82618	H	SUYASH RAJORIA	AC
82619	L	KRISHNAKANT UPADHYAY	ENGRS
82620	A	ASHISH KUMAR OJHA	AAD
82621	H	UTKARSH DWIVEDI	EME

IC No		Name	Arms/Services
82622	L	HARPREET SINGH JAHAL	INF
82623	N	ATHUL ASHOK KUMAR A	AAD

SPECIAL COMMISSION

The under mentioned 30 (Thirty) Gentlemen Cadets of SCO-37 Course are granted Special Commission in the Army in the rank of Lt w.e.f. 10 Dec 16 under the provision of AI 5/97.

OTA No	Army No		SC No		Name	Parent Arm/ Service	Arm/ Service Allotted
S-1254	15789814	K	01046	P	ARUN KUMAR	AAD	AAD
S-1244	15571203	H	01047	X	DHANE VIKRAM JOTIRAM	ENGRS	ENGRS
S-1248	15612074	L	01048	A	NIRMAL SINGH	MECH INF	MECH
S-1232	15618643	K	01049	H	S RAJ	MECH INF	SIGS
S-1249	4577952	F	01050	X	KUNDAN SINGH BHANDARI	INF	INF
S-1240	15613567	Y	01051	A	JOMBIR	MECH INF	ASC
S-1234	15210570	A	01052	H	MUKESH KUMAR	ARTY	INF
S-1233	15217028	M	01053	L	ABHAY KUMAR TIWARI	ARTY	ENGRS
S-1255	15483351	L	01054	N	RAVI RANA	AC	AC
S-1247	15694882	M	01055	W	LOKPAL SINGH	SIGS	INF
S-1252	15500050	A	01056	Y	MOHIT KANWAL	AC	INF
S-1245	2801057	P	01057	F	AJAMANE DINDAYAL MAHARUDRA	INF	AC
S-1238	15480747	K	01058	K	JITENDRA KUMAR	AC	AOC
S-1231	15679403	H	01059	M	MILENDRA SINGH CHHAVAI	SIGS	SIGS
S-1229	15811940	Y	01060	F	SANJAY KUMAR	AOC	ARTY
S-1250	15780439	H	01061	K	NIRMAL KUMAR	AAD	ARTY
S-1241	15790072	F	01062	M	HIMANGSHU RAJBANGSHI	AAD	INF
S-1226	3406951	K	01063	P	GURDEEP SINGH	INF	INF
S-1237	14939614	L	01064	X	SANDEEP KUMAR	MECH INF	ARTY
S-1239	15485654	Y	01065	A	ALLOKA KUMAR PADHY	ASC	ARTY
S-1243	9514081	M	01066	H	PANKAJ SHARMA	AEC	ENGRS
S-1251	15697046	N	01067	L	RAKESH CR	SIGS	EME
S-1230	6396897	N	01068	N	P ANBU DASAN	ASC	ASC
S-1227	14650868	K	01069	W	MANOJ KUMAR BHAMBHU	EME	EME
S-1253	6947451	M	01070	L	HEMANT KUMAR	AOC	INF
S-1235	6943007	Y	01071	N	SHIW SHANKAR PATHAK	INT CORPS	AOC
S-1242	14672008	W	01072	W	YADAV AMAR VISHNU	EME	ENGRS
S-1228	15155384	F	01073	Y	K ANANDA	ARTY	ARTY
S-1193	14655817	A	01074	F	MANOJ KUMAR SINGH	EME	SIGS
S-1246	14670979	H	01075	K	RAJ PAUL SINGH THAKUR	EME	EME

ABHISHEK TEWARY
Lt Col
AMS-8B

ARMY BRANCH

No. 41, dated 15th February 2018—The President is pleased to make the following appointments:-

(TO BE LTS W.E.F. 14 JUN 2014)

The undermentioned one Gentleman Cadet of 134 Regular Course is granted permanent commission in the Army in the rank of Lt. w.e.f 14 Jun 2014 under the provision of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC), as amended.

NARPAT SINGH GAUR (IC-79260K) INF seniority next below MANISH KUMAR (IC-79259P) ARTY whose name appeared in the Gazette of India.

(TO BE LTS W.E.F. 13 DEC 2014)

The undermentioned one Gentleman Cadet of 135 Regular Course is granted permanent commission in the Army in the rank of Lt. w.e.f 13 Dec 2014 under the provision of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC), as amended.

VIDUR KALAKOTI (IC-79879L) AOC seniority next below TAPESH YADAV (IC-79878H) INF whose name appeared in the Gazette of India.

(TO BE LTS W.E.F. 13 JUN 2015)

The undermentioned four Gentleman Cadet of 136 Regular Course is granted permanent commission in the Army in the rank of Lt. w.e.f 13 Jun 2015 under the provision of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC), as amended.

PRABHAT UPADHYAY (IC-80500H) ENGRS seniority next below VIKASH KUMAR SONDLIA (IC-80499Y) EME COMMA PRAVEEN YADAV (IC-80514H) AC seniority next below HIMANSHU (IC-80513A) MECH COMMA DHANANJAY SINGH HOODA (IC-80613L) AC seniority next below RANA BHARATI (IC- 80612H) ARTY COMMA SARVAPRIYA AMAN (IC- 80628N) ARTY seniority next below ABHISHEK DUBEY (IC- 80627L) ENGRS whose name appeared in the Gazette of India.

(TO BE LTS W.E.F. 11 JUN 2016)

The undermentioned one Gentleman Cadet of 138 Regular Course is granted permanent commission in the Army in the rank of Lt. w.e.f 11 Jun 2016 under the provision of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC), as amended.

SHUBHAM BISHT (IC- 81770K) MECH seniority next below PUNEET KUMAR (IC- 81769P) INF, whose name appeared in the Gazette of India.

(TO BE LTS W.E.F. 12 DEC 2015)

The undermentioned Three Gentleman Cadet of 137 Regular Course is granted permanent commission in the Army in the rank of Lt. w.e.f 12 Dec 2015 under the provision of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC), as amended.

RAVISH KUMAR YADAV (IC-81110M) INF seniority next above SANTOSH KUMAR PRADHAN (IC-81109X) ARTY, DEVRAJ SINGH RAJAWAT (IC-81133N) EME seniority next below GAURAV DUKARE (IC-81132L) INF, SWAMI NANDAN (IC-81214N) INF seniority next below and ASHOK CHOUDHARY (IC-81213L) AAD, whose name appeared in the Gazette of India.

(TO BE LTS W.E.F. 12 DEC 2015)

The undermentioned five Gentleman Cadet of 137 Regular Course is granted permanent commission in the Army in the rank of Lt. w.e.f 12 Dec 2015 under the provision of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC), as amended.

MOTE DINESH SATYANARAYAN (IC-80973F) ARTY seniority next above SUBHASH KUMAR (IC-80972Y) INF, RANBIR SINGH JAIJEE (IC-80993P) AC seniority next below PIYUSH SUNIL DESHMUKH (IC-80992M) ASC, AMIT VASHISHTHA (IC-81052N) ADD seniority next below GOVIND SINGH BAGDWAL (IC-81051L) ASC, ANKIT ROUSHAN (IC-81137K) AOC seniority next below PRASHANT NAUNI (IC-81136F) ENGRS, PINTU KUMAR (IC-81248F) ARTY seniority next below KULJEET SINGH (IC-81247Y) AC, whose name appeared in the Gazette of India.

(TO BE LTS W.E.F. 10 DEC 2016)

The undermentioned one Gentleman Cadet of 139 Regular Course is granted permanent commission in the Army in the rank of Lt. w.e.f 10 Dec 2016 under the provision of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC), as amended.

VIPIN SEMWAL (IC-82298Y) ASC seniority next below RAJPAL SINGH (IC-82297W) SIGS whose name appeared in the Gazette of India.

(TO BE LTS W.E.F. 11 JUN 2016)

The undermentioned four Gentleman Cadet of 138 Regular Course is granted permanent commission in the Army in the rank of Lt. w.e.f 11 Jun 2016 under the provision of SAI 4/S/74 (for DE), AI 53/78 read with SAI 4/S/74 (for Ex NDA) and AI 55/73 (for Ex ACC), as amended.

ABHISHEK MAHALE (IC-81540W) INF seniority next below DEEP CHANDRA (IC-81539F) AOC, COMMA AMIT TIWARI (IC-81834K) ARTY seniority next below KESHU CHANDRA (IC-81833F) ARTY, COMMA TARUN SINGH GULERIA (IC- 81842H) INF seniority next below AYUSH SHARMA (IC- 81841A) INF COMMA I SOORAJ BELLIPPA (IC-81890H) INF seniority next below DHRUV VERMA (IC-81889N) MECH, , whose name appeared in the Gazette of India.

PRAKASH KUMAR SINGH
Maj
AMS 8B

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANIZATION

No. 42, dated 16th February 2018—The President is pleased to make the appointment of the under mentioned individuals as temporary Scientists 'B' (Group 'A') in the Defence Research and Development Service on probation for a period of two years with effect from the date shown against their names in the Pay Scale of ₹15600—39100 (Pay Band-3) + Grade Pay ₹5400/- :-

S. No.	PIN No.	Name	Estt./Lab	Date of Joining
1.	2015AB1078	Shri Gayasuddin Quraishi	ADRDE, Agra	21.12.2015
2.	2015AB1080	Ms. Anishi Gupta	ANURAG, Hyderabad	21.12.2015
3.	2015AB1077	Ms. Sapana Kharwar	CFEES, Delhi	26.11.2015
4.	2014AB1037	Shri Sasya Shyam Yella	CVRDE, Chennai	01.08.2014
5.	2015AB1093	Shri Veeragoni Sandeep	DRDL, Hyderabad	07.12.2015
6.	2014AB1012	Shri Nitin Kumar	LRDE, Bengaluru	01.08.2014
7.	2014AB1016	Shri Patel Tanay Somnath	PXE, Balasore	04.08.2014
8.	2015AB1085	Shri Mahendra Kumar Arya	SASE, Chandigarh	07.12.2015
9.	2014AB1008	Shri Ballela Kiran Bhargav	SSPL, Delhi	01.08.2014

The President is pleased to make the appointment of the under mentioned individuals as temporary Scientists 'C' (Group 'A') in the Defence Research and Development Service on probation for a period of one year with effect from the date shown against their names in the Pay Scale of ₹15,600—39,100 (Pay Band-3) + Grade Pay ₹6,600/- :-

S. No.	PIN No.	Name	Estt./Lab	Date of Joining
1	2017AC1001	Shri Deepu S Krishnan	HQ SPIC, Delhi	10.04.2017
2	2016AC1004	Shri Gourav Vashistha	HQ SPIC, Delhi	18.07.2016

ANJUM SIDDIQUI
Dy Director/Pers (DRDS-II)

ARMY BRANCH

No. 43, dated 19th February 2018—The President is pleased to make the following promotions: -

REGULAR ARMY PERMANENT COMMISSION (ARMY MEDICAL CORPS)

Surg Cmde (& equivalent) to be Surg R Adm (& equivalent)

G Vishwanath (MR-04662A)(75286-B)	-	19-06-17, with notional seniority without effect on pay & pension from 14-04-17.
S Bajpai (MR-04782Y)	-	24-06-17, with notional seniority without effect on pay & pension from 01-05-17.
J Chatterjee (MR-04744H)(75291-R)	-	06-12-16, with notional seniority without effect on pay & pension from 18-11-16.

Ministry of Defence Gazette Notification published in Part I Section-4 of the Gazette of India on 01 Jul 2017 under the heading Regular Army/Permanent Commission and Sub Heading Surg Cmde (& equivalent) to be Surg R Adm (& equivalent) in respect of the above officer may be treated as cancelled.

Gp Capt (& Equivalent) to be Air Cmde (& Equivalent)

S Sharma (MR-06496W) (AF-19320-G)	-	21-06-17, with notional seniority without effect on pay & pension from 01-04-17.
--------------------------------------	---	--

Surg Capt (& Equivalent) to be Surg Cmde (& Equivalent)

AA Karmarkar (MR-05736W)(75423-R)	-	05-05-17, with notional seniority without effect on pay & pension from 01-04-17.
NK Mahesh, VSM (MR-05745X)(75424-T)	-	01-06-17
S Ranjan, NM (MR-06701M)(75498-K)	-	10-07-17, with notional seniority without effect on pay & pension from 24-06-17.
A Kapur, NM (MR-05629P)(75410-K)	-	24-11-16, with notional seniority without effect on pay & pension from 19-10-16.

LT COL TO COLONEL (TIME SCALE)

MR-06529W	LT COL	VB TRIPATHI	04 DEC 2017
-----------	--------	-------------	-------------

MAJ TO BE LT COL

Name	MR	Promotion date	Authority Promotion Order No.
Madhu Pratap Singh	MR-08237-M	20 Sep 2017	222/Misc/DGAFMS/DG-1B(i) dt 18 Aug 2017
Kamal Kumar Deb	MR-08812-H	22 Sep 2017	222/Misc/DGAFMS/DG-1B(i) dt 03 Jul 2017
Avinash Mishra	MR-08774-X	22 Sep 2017	222/Misc/DGAFMS/DG-1B(i) dt 03 Jul 2017
Khaleel M	MR-08915-F	22 Sep 2017	222/Misc/DGAFMS/DG-1B(i) dt 03 Jul 2017
Samuel Lalrintluanga	MR-09102-X	13 Oct 2017	222/Misc/DGAFMS/DG-1B(i) dt 01 Sep 2017
Magesh Kumar	MR-08974-N	22 Sep 2017	222/Misc/DGAFMS/DG-1B(i) dt 18 Aug 2017
Hrishikesh Magdum	MR-08919-X	22 Sep 2017	222/Misc/DGAFMS/DG-1B(i) dt 03 Jul 2017
Achinta KR Mallick	MR-08955-H	06 Oct 2017	222/Misc/DGAFMS/DG-1B(i) dt 01 Sep 2017
Vikas Kumar	MR-08933-K	22 Sep 2017	222/Misc/DGAFMS/DG-1B(i) dt 03 Jul 2017
D V Bhargava	MR-08174-P	27 Dec 2016	222/Misc/DGAFMS/DG-1B(i) dt 29 Sep 2016
Varun Jerath	MR-08923-A	17 Sep 2017	222/Misc/DGAFMS/DG-1B(i) dt 03 Jul 2017
Puneet Singh	MR-08794-L	22 Sep 2017	222/Misc/DGAFMS/DG-1B(i) dt 03 Jul 2017
Abhishek Kumar	MR-07879-P	04 Jan 2015	222/Misc/DGAFMS/DG-1B(i) dt 19 Jul 2017
Rahul Jha	MR-08697-N	12 Apr 2016	222/Misc/DGAFMS/DG-1B(i) dt 19 Jul 2017
Sharad Kumar Goel	MR-09233-H	25 Apr 2016	222/Misc/DGAFMS/DG-1B(i) dt 19 Jul 2017
Sandeep Sharma	MR-08127-X	09 Aug 2016	222/Misc/DGAFMS/DG-1B(i) dt 19 Jul 2017
Sanjaya Kumar Gupta	MR-09415-W	02 Aug 2017	222/Misc/DGAFMS/DG-1B(i) dt 03 Jul 2017
Shailendra Kumar	MR-08493-F	17 Feb 2015	222/Misc/DGAFMS/DG-1B(i) dt 19 Jul 2017
Kumar Sanjay Nirala	(MR-07921-H)	22 Feb 2015	222/Misc/DGAFMS/DG-1B(i) dt 19 Jul 2017
Vinod Kumar	MR-08151-N	27 Dec 2016	222/Misc/DGAFMS/DG-1B(i) dt 29 Sep 2016
Raj Narayan Mandal	MR-09125-Y	22 Sep 2017	222/Misc/DGAFMS/DG-1B(i) dt 03 Jul 2017
Tejinder Singh	MR-08917-M	22 Sep 2017	222/Misc/DGAFMS/DG-1B(i) dt 03 Jul 2017
Anup Kumar	MR-08785-K	17 Sep 2017	222/Misc/DGAFMS/DG-1B(i) dt 03 Jul 2017
Amit Kumar Kamewad	MR-08916-K	22 Sep 2017	222/Misc/DGAFMS/DG-1B(i) dt 03 Jul 2017
Abhishek Bhardwal	MR-09250-H	22 Sep 2017	222/Misc/DGAFMS/DG-1B(i) dt 03 Jul 2017
Biju R	MR-08795-N	22 Sep 2017	222/Misc/DGAFMS/DG-1B(i) dt 03 Jul 2017
Saurabh Vashisth	MR-08952-P	17 Sep 2017	222/Misc/DGAFMS/DG-1B(i) dt 03 Jul 2017
Nitin Sharma	MR-08796-W	22 Sep 2017	222/Misc/DGAFMS/DG-1B(i) dt 03 Jul 2017
J John Magesh Kumar	MR-08814-N	22 Sep 2017	222/Misc/DGAFMS/DG-1B(i) dt 03 Jul 2017
Harvinder Sangwan	MR-08914-Y	22 Sep 2017	222/Misc/DGAFMS/DG-1B(i) dt 03 Jul 2017
Dilesh PK	MR-08792-A	22 Sep 2017	222/Misc/DGAFMS/DG-1B(i) dt 03 Jul 2017
Surabhi Sharma	MR-08793-H	22 Sep 2017	222/Misc/DGAFMS/DG-1B(i) dt 03 Jul 2017

SQN LDR TO BE WG CDR

Rohit Vashisht (MR-09057-W) (AF-28410-K), AMC	-	16 Dec 2016
Arun Kumar Patra (MR-09058-Y)(AF-28398-R), AMC	-	16 Dec 2016
Amrita Parmar (MR-09146-P)(AF-27679-A), AMC	-	27 Dec 2016
Sanjay Kumar (MR-08156-M) (AF-27675-G), AMC	-	27 Dec 2016
Rahul Dev Chauhan (MR-08158-X) (AF-27677-N), AMC	-	27 Dec 2016

FLT LT TO BE SQN LDR

Tejbir Singh (MR-09390-P) (AF-32370-L), AMC

- 23 Feb 2017

Name	MR/AF	Promotion date	Authority
Shivali Bansal	(MR-09335-Y)/ (AF-32366-H),	23 Feb 2017	222/Maj/DGAFMS/DG-1B(i) dt 13 Dec 2016
Nidhi Goel	(MR-09337-K)/ (AF-32367-L),	23 Feb 2017	222/Maj/DGAFMS/DG-1B(i) dt 13 Dec 2016
Aniket Sharma	(MR-09365-W)/ (AF-32368-R),	23 Feb 2017	222/Maj/DGAFMS/DG-1B(i) dt 13 Dec 2016

CAPT TO BE MAJ

Name	MR	Promotion date	Authority Promotion Order No.
Upadhye Manoj Arun	(MR-09767-N)	19 Apr 2017	222/Maj/DGAFMS/DG-1B(i) dt 28 Mar 2017
Praveen Bajaj	(MR-09768-W)	06 Aug 2017	222/Maj/DGAFMS/DG-1B(i) dt 20 Jul 2017
Manish Sandhu	(MR-09378-N)	23 Feb 2017	222/Maj/DGAFMS/DG-1B(i) dt 13 Dec 2016
Shivani Mishra	(MR-09771-W)	12 Sep 2017	222/Maj/DGAFMS/DG-1B(i) dt 20 Jul 2017
Akshay Bhatnagar	(MR-09782-H)	23 Feb 2017	23056/Prom/DGAFMS/DG-1B(ii) dt 05 Jan 2017
Anju Pannu	(MR-09862-A)	13 Aug 2017	23056/Prom/DGAFMS/DG-1B(ii) dt 26 May 2017
Ikroop Kaur Sahota	(MR-09746-X)	06 Nov 2016	222/Maj /DGAFMS/DG-1B(i) dt 04 Aug 2016

B SRIDHAR

Brig

Dy DGAFMS (HR)

No. 44, dated 20th February 2018—The President is pleased to make the following promotion in respect of MNS officers with effect from the date(s) mentioned against the each name:-

REGULAR ARMY
(PERMANENT COMMISSION)

LT COL (TS) TO LT COL (SELECT)

RANK & NAME	PERS NUMBER	DATE OF PROMOTION
Lt Col (S) REETHAMMA VARGHESE 3/043/169641M	NR-18953L	17/10/2016
Lt Col (S) R PADMA HEPSIBA 3/47/172238L	NR-19127X	05/06/2017
Lt Col (S) VEENA BHATTI 17/297/172083F	NR-19165N	02/08/2017
Lt Col (S) R VIJAY RANI 3/052/172159W	NR-19189X	04/08/2017
Lt Col (S) VALSA CO 3/041/172117K	NR-19201N	08/09/2017
Lt Col (S) VALSAMMA DOMINIC 2/034/172259F	NR-19212A	11/09/2017
Lt Col (S) PREBHA MATHEW 3/038/172131W	NR-19229N	25/09/2017
Lt Col (S) MARY SUSANA	NR-18945M	27/03 /2017
Lt Col (S) SUDHA V	NR-19121W	19/04/2017
Lt Col (S) GRACY SHIBU	NR-19139M	12/06/2017

Lt Col (S) M NIRMALA	NR-19172K	11/09/2017
Lt Col (S) SHOBHANA P	NR-19195L	06/09/2017
Lt Col (S) ELSAMMA JOSEPH	NR-19215N	13/09/2017
Lt Col (S) LATHA KUMARI U	NR-19270K	01/10/2017

NS to NR

RANK & NAME	PERS NO.	DATE OF COMMISSION IN SSC	GRANT OF PERMANENT COMMISSION WEF
MAJ MEGHA RAWAT	NS 21686A	23 Aug 2007	23 Sep 2016
MAJ A GRACE GNANA MARGRET	NS 21722A	24 Mar 2008	23 Sep 2016
MAJ VISHVABHARTI	NS 21744Y	24 Mar 2008	23 Sep 2016
CAPT KALPANA KAPSE	NS 21820A	01 Mar 2012	23 Sep 2016
CAPT NISHA SHARMA	NS 22932M	01 Mar 2012	23 Sep 2016
CAPT AKHILA A S	NS 22933P	01 Mar 2012	23 Sep 2016
CAPT NISHA SN	NS 22938N	01 Mar 2012	23 Sep 2016
CAPT RASHMI TIWARI	NS 22943Y	01 Mar 2012	23 Sep 2016
CAPT ANSU S	NS 22958F	01 Mar 2012	23 Sep 2016

CAPT TO MAJ

PERS NO.	RANK	NAME	DATE OF PROMOTION
NR 22377K	MAJ	PRERANA DIXIT	07/08/2017
NR 22378M	MAJ	CHANDANA C	07/08/2017
NR 22379P	MAJ	GITA DEVI	07/08/2017
NR 22380K	MAJ	GEETANJALI SEHGAL	07/08/2017
NR 22381M	MAJ	BHAWNA GAUR	07/08/2017
NR 22382P	MAJ	SUNITA DEVI	07/08/2017
NR 22383X	MAJ	LORENA DOROTHEE PRAKASH	07/08/2017
NR 22384A	MAJ	DEEPIKA SHEROUN	07/08/2017
NR 22385H	MAJ	NEELAM CHAND	07/08/2017
NR 22386L	MAJ	PRIYANKA CHAUBEY	07/08/2017
NR 22387N	MAJ	CHRISTINA	07/08/2017
NR 22388W	MAJ	SANIYA THAKUR	07/08/2017
NR 22389Y	MAJ	ARCHANA SHARMA	07/08/2017
NR 22390N	MAJ	SUMITH MATHEW	07/08/2017
NR 22391W	MAJ	SUMAN KUMARI	07/08/2017
NR 22392Y	MAJ	KANCHAN BALA KUNDAL	07/08/2017
NR 22393Y	MAJ	PRATIBHA RANI	07/08/2017
NR 22395M	MAJ	RAJANI R	07/08/2017
NR 22396P	MAJ	SIJO K THOMAS	07/08/2017
NR 22397X	MAJ	SITA DEVI	07/08/2017
NR 22398A	MAJ	JIJI V NAIR	07/08/2017
NR 22399H	MAJ	SHEETAL	07/08/2017
NR 22401P	MAJ	USHA PANDEY	07/08/2017
NR 22402X	MAJ	DEEPA BISHT	07/08/2017
NR 22403A	MAJ	SAVITA PANDEY	07/08/2017
NR 22404H	MAJ	SUMAN VERMA	07/08/2017
NR 22405L	MAJ	RINI RAJ	07/08/2017

PERS NO		RANK	NAME	DATE OF PROMOTION
NR	22281F	MAJ	ASWATHY DAS	05.03.2017
NR	22291L	MAJ	JEENA THOMAS	05.03.2017
NR	22292N	MAJ	AKHILA G S	05.03.2017
NR	22295F	MAJ	DARSANA K	05.03.2017
NR	22296K	MAJ	SOUMYA T	05.03.2017
NR	22297M	MAJ	RENUKA D R	05.03.2017
NR	22301K	MAJ	R V SHILPA	05.03.2017
NR	22302M	MAJ	RUBY JOSE	05.03.2017
NR	22321X	MAJ	BANDELA MANI	05.03.2017
NR	22325N	MAJ	REJILA V	05.03.2017
NR	22326W	MAJ	YASHASWINI	05.03.2017
NR	22328F	MAJ	TINA SHERPA	05.03.2017
NR	22332K	MAJ	RENJUMOL K	05.03.2017
NR	22346K	MAJ	JYOTHI JOSE	05.03.2017
NR	22359F	MAJ	BHUVANESWARI D	05.03.2017
NR	22363K	MAJ	RAJESHWARI M U	05.03.2017
NR	22365P	MAJ	LAVANYA L V	05.03.2017
NR	22366X	MAJ	RAJANI A	05.03.2017
NR	22367A	MAJ	JASMIN JOY	05.03.2017

LT TO CAPT

PERS NO		RANK	NAME	DATE OF PROMOTION
NR	23357H	CAPT	MEERA JOSEPH	01/03/2017
NR	23358L	CAPT	DEEPIKA	01/03/2017
NR	23359N	CAPT	PRERNA BHARDWAJ	01/03/2017
NR	23360H	CAPT	MAMTA SHARMA	01/03/2017
NR	23362N	CAPT	DEEPIKA KUMARI DWIVEDI	01/03/2017
NR	23363W	CAPT	SURYA S NAIR	01/03/2017
NR	23364Y	CAPT	KANCHAN YADAV	01/03/2017
NR	23365F	CAPT	SUJU PRADHAN	01/03/2017
NR	23366K	CAPT	BAIDAHI KUMARI	01/03/2017
NR	23367M	CAPT	SREEKUTTY S KUMAR	01/03/2017
NR	23368P	CAPT	MARIAM SUSAN OOMMEN	01/03/2017
NR	23369X	CAPT	NIKITA PRADHAN	01/03/2017
NR	23370M	CAPT	JISMI JOSEPH	01/03/2017
NR	23371P	CAPT	POOJA UPADHYAY	01/03/2017
NR	23372X	CAPT	MONIKA KARKI	01/03/2017
NR	23373A	CAPT	MANJU V	01/03/2017
NR	23374H	CAPT	REENA	01/03/2017
NR	23375L	CAPT	NEHA TRIVEDI	01/03/2017

NR	23376N	CAPT	SUDIPA GURUNG	01/03/2017
NR	23377W	CAPT	S DHANRANI	01/03/2017
NR	23378Y	CAPT	YACHANA GURUNG	01/03/2017
NR	23379F	CAPT	THANGLUNKIM	01/03/2017
NR	23380W	CAPT	ANUSHA THOMAS	01/03/2017
NR	23381Y	CAPT	SHILPA P	01/03/2017
NR	23382F	CAPT	BABITA CHAUHAN	01/03/2017
NR	23383K	CAPT	PRAVEENA PRABHAKAR	01/03/2017
NR	23384M	CAPT	MAITRI CHATTERJEE	01/03/2017
NR	23385P	CAPT	THARA S NAIR	01/03/2017
NR	23386X	CAPT	PINKY JOHN	01/03/2017
NR	23387A	CAPT	PUJA KUMARI SHAW	01/03/2017
NR	23388H	CAPT	ALKA BADGAL	01/03/2017
NR	23389L	CAPT	JUHI SINGH	01/03/2017
NR	23390A	CAPT	PRERNA ALLAY	01/03/2017
NR	23391H	CAPT	RENJINIMOL PT	01/03/2017
NR	23392L	CAPT	REETA RANI GOUDA	01/03/2017
NR	23393N	CAPT	SHAELA MUKHIA	01/03/2017
NR	23394W	CAPT	RITU BHARGAV	01/03/2017
NR	23395Y	CAPT	GREESHMA HENDRY	01/03/2017
NR	23396F	CAPT	PRATIBHA SINGH SOMWANSHI	01/03/2017
NR	23397K	CAPT	SABARNI MAJUMDAR	01/03/2017
NR	23398M	CAPT	ASHA GOPINATH K	01/03/2017
NR	23399P	CAPT	UNICE LUNGLO	01/03/2017
NR	23400Y	CAPT	INDU RAI	01/03/2017
NR	23401F	CAPT	SREEVIDHYA S	01/03/2017
NR	23402K	CAPT	MINGMA LAMU SHERPA	01/03/2017
NR	23403M	CAPT	DEUNY SUSAN VARGHESE	01/03/2017
NR	23404P	CAPT	TANY THAMPY	01/03/2017

ELIZABETH JOHN
Maj Gen
Addl DGMNS

ARMY BRANCH

No. 45, dated 21st February 2018—The President is pleased to make the following promotion: -

TERRITORIAL ARMY TERRITORIAL COMMISSION

TO BE MAJOR

Capt VP Singh	TA-42728	(Engineer TA)	28 Jan 2017
Capt Yatish Kumar	TA-42729	(Engineer TA)	27 Feb 2017
Capt Sunil Kumar	TA-42730	(Engineer TA)	27 Feb 2017
Capt GC Rajashekar	TA-42734	(ASC TA)	26 May 2017

TO BE CAPTAIN

Lt N Sreenivas Reddy	TA-42643	(Engineer TA)	08 Aug 09
Lt Radhey Shyam Tiwari	TA-42866	(Engineer TA)	19 Nov 16
Lt Vimlesh Kumar Singh	TA-42886	(Engineer TA)	07 Jul 17
Lt Ashik Amanulla Khan	TA-42887	(Engineer TA)	09 Jul 17
Lt Lal Chand Meena	TA-42888	(Engineer TA)	09 Jul 17
Lt Kuldeep Singh	TA-42892	(Engineer TA)	17 Sep 17
Lt Parmod Kumar	TA-42893	(Engineer TA)	17 Sep 17
Lt Rajesh Gupta	TA-42898	(Engineer TA)	14 Nov 17
Lt Rakesh Kumar	TA-42899	(Engineer TA)	30 Oct 17

M P SINGH
Under Secy

ARMY BRANCH

CORRIGENDUM

No. 46, dated 22nd February 2018—The President is pleased to make the following appointment.

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION

(to be 2/Lt w.e.f. 09 Jun 1984)

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification with respect to 74 Regular Course published in the Gazette of India dated 10 Aug 1985 under the heading “Permanent Commission” in the Regular Army is here by amended as under :-

For	AJAI H CHAUHAN	IC-41926N	MECH
Read	AJAY H CHAUHAN	IC-41926N	MECH

PRAKASH KUMAR SINGH
Maj
AMS 8B